

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 7—जून 13, 2014 (ज्येष्ठ 17, 1936)

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 7—JUNE 13, 2014 (JYAISTHA 17, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जून 2014

रक्षा (एम एस)

संख्या 113, दिनांक 23 अप्रैल 2014—भारत के माननीय राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

अवैतनिक थल सेना ए डी सी

पैदल सेना कोर (दिनांक 01 मई 2014 से)

आईसी-30389एन ले. जन. संजीव चाचरा, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे, वि.से.मे.

आईसी-30089एम ले. जन. नरेन्द्र सिंह, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे., से.मे., वि.से.मे.

(सेवानिवृत्त) के स्थान पर

रेवती रमन
अवर सचिव

सेना शाखा

सं.114, दिनांक 24 अप्रैल 2014—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लै0 बनाया जाता है

कुलदीप सिंह	टीए-42892	(इन्जीनियर टीए)	17 सितम्बर 2013
प्रमोद कुमार	टीए-42893	(इन्जीनियर टीए)	17 सितम्बर 2013
राहुल सुधांशु	टीए-42895	(इन्जीनियर टीए)	05 नवम्बर 2013
गौरव अग्रवाल	टीए-42897	(इन्जीनियर टीए)	11 नवम्बर 2013
राजेश गुप्ता	टीए-42898	(इन्जीनियर टीए)	14 नवम्बर 2013
राकेश कुमार	टीए-42899	(इन्जीनियर टीए)	30 अक्टूबर 2013

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

पिछली तिथि से वरीयता

एस एस-37615 एच पूर्व लैफ्टीनेन्ट कर्नल अब टी ए-42875 लैफ्टीनेन्ट करनबीर सिंह नत को प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 10 मई 2013 से लैफ्टीनेन्ट के पद पर इन्फैन्ट्री (टी ए) में कमीशन प्रदान किया जाता है। नियमित सेना की 14 साल और 87 दिन (दिनांक 05 सितम्बर 1998 से 30 नवम्बर 2012) की सेवा के लिए उन्हें प्रादेशिक सेना में 13 फरवरी 1999 से लैफ्टीनेन्ट के पद पर वरीयता प्रदान की जाती है। पिछली तिथि से वरीयता के कारण उन्हें दिनांक 10 मई 2013 से मेजर तथा 13 फरवरी 2014 से लैफ्टीनेन्ट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। उन्हें प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के पैरा 25(ए) तथा 38(ए) में निहित प्रावधान (संशोधित संस्करण 1976), ए वी एस सी समिति प्रतिवेदन के अनुसार भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं 18(1)2006/डी (जी एस-1) दिनांक 18 अप्रैल 2006 द्वारा यथा संशोधित, के अन्तर्गत वेतन एवम् पदोन्नति में वार्षिक बढ़ोत्तरी हेतु सैद्धान्तिक वरीयता के साथ दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से कैप्टन तथा 13 फरवरी 2007 से मेजर के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

एस एस-38144 पूर्व लैफ्टीनेन्ट परमिन्दर सिंह सोहल अब टी ए-42848 लैफ्टीनेन्ट परमिन्दर सिंह सोहल को प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 10 मई 2012 से लैफ्टीनेन्ट के पद पर इन्फैन्ट्री (टी ए) में कमीशन प्रदान किया जाता है। नियमित सेना की 05 साल (दिनांक 04 सितम्बर 1999 से 03 सितम्बर 2004) की सेवा के लिए उन्हें प्रादेशिक सेना में 10 मई 2007 से लैफ्टीनेन्ट के पद पर वरीयता प्रदान की जाती है। पिछली तिथि से वरीयता के कारण उन्हें दिनांक 10 मई 2012 से कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। उन्हें प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के पैरा 25(ए) तथा 38(ए) में निहित प्रावधान (संशोधित संस्करण 1976), ए वी एस सी समिति प्रतिवेदन के अनुसार भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 18(1)2006/डी (जी एस-1) दिनांक 18 अप्रैल 2006 द्वारा यथा संशोधित, के अन्तर्गत वेतन एवम् पदोन्नति में वार्षिक बढ़ोत्तरी हेतु सैद्धान्तिक वरीयता के साथ दिनांक 10 मई 2011 से कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

ऋतु शर्मा
अवर सचिव

एकीकृत मुख्यालय : रक्षा मंत्रालय (नौसेना)

सं 115, दिनांक 25 अप्रैल 2014—राष्ट्रपति, द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एम एफ/1822/डी ई एस/अनु -IV/03 दिनांक 13 जनवरी 2014 एवं एम एफ/1506/डी ई एस/अनु -I/03 दिनांक 15 जनवरी 2014 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा (सामान्य सेवा, हाइड्रो कैडर, वायु यातायात कैडर, ऑब्जर्वर, संभारिकी कैडर, नौसेना आयुध निरीक्षण कैडर, विधि

कैडर), शिक्षा शाखा, अभियांत्रिक शाखा (सामान्य सेवा), वैद्युत शाखा (सामान्य शाखा) एवं अभियांत्रिक शाखा (पनडुब्बी शाखा)–जनवरी 2011 में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं :—

सब-ले, के रैंक में परखाधीन

क्रम सं०	नाम	निजी संख्या	कमीशन की किस्म	कमीशन की तिथि
1	2	3	4	5
सीधी भर्ती योजना				
कार्यकारी शाखा (सामान्य सेवा) (अस्थायी)				
(i)	किरण आर	06888-B	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(ii)	मार्टिन बेनेडिक्ट जैद वी	06889-F	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(iii)	बिनु आर डी पानिकर	06890-H	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(iv)	सैकत मंडल	06891-K	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(v)	गौरव पुरी	06892-N	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(vi)	देवदत्त हांसदा	06893-R	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(vii)	पुनित कटेवा	06894-T	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(viii)	विसाख ए. एम	06895-W	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(ix)	वेंकटेश के. आर.	06897-Z	अस्थायी	03 जनवरी 2011
कार्यकारी शाखा (हाइड्रो कैडर) (अस्थायी)				
(i)	चितरंजन कुमार सिंह	06898-A	अस्थायी	03 जनवरी 2011
कार्यकारी शाखा (वायु यातायात कैडर) (अस्थायी)				
(i)	दिप्ती द्विवेदी	06881-N	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(ii)	जरीना बेगम	06883-T	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(iii)	अखिल एस. एल.	06884-W	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(iv)	दिव्या ज्योति श्रीवास्तव	06885-Y	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(v)	रजनीश भाटी	06886-Z	अस्थायी	18 जनवरी 2011
(vi)	जी. राजकुमार	06887-A	अस्थायी	20 जनवरी 2011
कार्यकारी शाखा (ऑब्जर्वर) (अस्थायी)				
(i)	प्रसाद राजेन्द्र देशपांडे	06912-H	अस्थायी	03 जनवरी 2011
कार्यकारी शाखा (संभारिकी कैडर) (स्थायी)				
(i)	अर्जुन कपूर	06899-B	स्थायी	03 जनवरी 2011
(ii)	आनंद कुमार झा	06900-F	स्थायी	03 जनवरी 2011
(iii)	हिमांशु गौतम	06901-H	स्थायी	03 जनवरी 2011
(iv)	हरि इ.	06902-K	स्थायी	03 जनवरी 2011
(v)	अंकित आचार्या	06904-R	स्थायी	03 जनवरी 2011

1	2	3	4	5
(vi)	सत्यम दूबे	06905-T	स्थायी	03 जनवरी 2011
(vii)	निशांत राणा	06906-W	स्थायी	03 जनवरी 2011
(viii)	अभिमन्यु	06907-Y	स्थायी	03 जनवरी 2011
(ix)	अंशु राजपाल	06908-Z	स्थायी	03 जनवरी 2011
(x)	मयंक संधिर	06909-A	स्थायी	15 जनवरी 2011
(xi)	उत्तम पुनिया	06910-B	स्थायी	18 जनवरी 2011
कार्यकारी शाखा (नौसेना आयुध निरीक्षण कैडर) (स्थायी)				
(i)	वरुण जे चनद्रन	06913-K	स्थायी	03 जनवरी 2011
(ii)	अमित कुमार सिंह	06914-N	स्थायी	03 जनवरी 2011
(iii)	श्रवण एस.	06915-R	स्थायी	03 जनवरी 2011
(iv)	शंकर सरत	06916-T	स्थायी	03 जनवरी 2011
(v)	सुकांत द्विवेदी	06918-Y	स्थायी	03 जनवरी 2011
(vi)	सैथिल एस.	06919-Z	स्थायी	03 जनवरी 2011
(vii)	हिमांशु चौहान	06920-A	स्थायी	04 जनवरी 2011
(viii)	वी.एस.एस.एच. सरण पुनियामुर्थला	06922-F	स्थायी	06 जनवरी 2011
(ix)	अरुण आर	06926-R	स्थायी	18 जनवरी 2011
कार्यकारी शाखा (विधि कैडर) (स्थायी)				
(i)	रजत गुप्ता	06873-W	स्थायी	03 जनवरी 2011
(ii)	आदित्य दीप सिंह	06874-Y	स्थायी	03 जनवरी 2011
(iii)	राहुल अहलावत	06875-Z	स्थायी	03 जनवरी 2011
(iv)	विकाश चहर	06876-A	स्थायी	03 जनवरी 2011
(v)	निलाक्ष शर्मा	06877-B	स्थायी	03 जनवरी 2011
(vi)	सिद्धार्थ शर्मा	06878-F	स्थायी	03 जनवरी 2011
(vii)	अभिमन्यु सिंह	06879-H	स्थायी	03 जनवरी 2011
(viii)	गुल नवाज नक्वी	06880-K	स्थायी	03 जनवरी 2011
कार्यकारी शाखा (विधि कैडर) (अस्थायी)				
(i)	अविनाश सबारद	06867-F	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(ii)	भृगु गेरा	06868-H	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(iii)	अजय पाल सिंह	06869-K	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(iv)	श्रीहरि पाटिल	06870-N	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(v)	अमनदीप सिंह तूर	06871-R	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(vi)	विजय कुमार पाटिल	06872-T	अस्थायी	10 जनवरी 2011

1	2	3	4	5
शिक्षा शाखा (अस्थायी)				
(i)	अनविथ मेडप्पा के. एम.	70636-K	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(ii)	प्रियंका प्रियदर्शिनी	70638-R	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(iii)	इन्द्रजित यादव	70639-T	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(iv)	के. फिरोजा देवी	70640-W	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(v)	राना प्रनीत हिमांशु	70642-Z	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(vi)	विवेकानंदन एम.	70643-A	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(vii)	सुदिश टी. एम.	70644-B	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(viii)	शिशिर नायर	70645-F	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(x)	मलाथी डी.	70646-H	अस्थायी	18 जनवरी 2011
(ix)	अनोष्का दुमका	70648-N	अस्थायी	18 जनवरी 2011
अभियांत्रिक शाखा (सामान्य सेवा) (अस्थायी)				
(i)	हर्षवर्धन रावत	43119-Y	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(ii)	अभिमन्यु शर्मा	43120-Z	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(iii)	प्रीत कनवर सिंह	43121-A	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(iv)	शुसील यादव	43122-B	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(v)	विवेक आर.	43123-F	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(vi)	कपिलन ए.	43124-H	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(vii)	स्वतंत्र सैनी	43125-K	अस्थायी	03 जनवरी 2011
वैद्युत शाखा (सामान्य सेवा) (अस्थायी)				
(i)	इ. नवीन मार्श	52659-B	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(ii)	लिजुमोन योहानन	52660-F	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(iii)	निखिल कुमार धुलिया	52661-H	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(iv)	हर्ष वर्मा	52662-K	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(v)	जॉर्ज जोसेफ	52663-N	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(vi)	कृष्ण कुमार आर. झाला	52664-R	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(vii)	पी. कृषित	52665-T	अस्थायी	17 जनवरी 2011
अभियांत्रिक शाखा (पनडुब्बी) (अस्थायी)				
(i)	गाइकवाड मोरेश्वर सुभाष	43127-R	अस्थायी	03 जनवरी 2011

अजय शर्मा

कप्तान

डी एम पी आर ओ आई एंड आर

थलसेना विभाग

सं. 116, दिनांक 28 अप्रैल 2014—थलसेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

ले0 कर्नल से कर्नल (टी. एस) के पद पर

क्रम सं.	निजी संख्या	पद	नाम	टिप्पणी
क	डी आर-10423एफ	ले0 कर्नल	पी के पाल	16-05-2013
ख	डी आर-10383 एल	ले0 कर्नल	प्रकाश हलदर	06-08-2013

थलसेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

सर्जन ले0 कमाण्डर से सर्जन कमाण्डर के पद पर

क्रम सं.	निजी संख्या	पद	नाम	
क	डी आर-10541पी (79065टी)	सर्जन ले0 कमाण्डर	ए चक्रनारायण	10-05-2013

मेजर से ले0 कर्नल के पद पर

क्रम सं.	निजी संख्या	पद	नाम	
क	डी आर-10580एन	मेजर	देसाई अजय परमानन्द	30.05.2013
ख	डी आर-10582वाई	मेजर	शाह राकेश जयकृष्णा	13.08.2013
ग	डी आर-10573एक्स	मेजर	करन नेहरा	25.08.2013
घ	डी आर-10575एच	मेजर	नवीन नन्दल	25.08.2013
ड.	डी आर-10583एफ	मेजर	गौरव वोहरा	09.09.2013
च	डी आर-10576एल	मेजर	ए एस जी सन्नगोवढर	11.09.2013
छ	डी आर-10584के	मेजर	विशाल गुप्ता	12.09.2013
ज	डी आर-10617के	मेजर	(सुश्री) गुरामृत सन्धु	14.09.2013
झ	डी आर-10539एक्स	मेजर	रोहित शर्मा	27.09.2013

अल्पकालीन कमीशन

मेजर से ले0 कर्नल के पद पर

क्रम सं.	निजी संख्या	पद	नाम	
1	2	3	4	5
क	डी एस-12072 डब्ल्यू	मेजर	(सुश्री) चिराश्री चक्रवर्ती	28.07.2013
ख	डी एस-12045एम	मेजर	(सुश्री) सुस्मिता पण्डा	22.08.2013
ग	डी एस-12050एक्स	मेजर	(सुश्री) शीतल लाल	01.09.2013

1	2	3	4	5
घ	डी एस-12055 डब्ल्यू	मेजर	(सुश्री) स्वाती चौहान	10.09.2013
ड.	डी एस-12079 ए	मेजर	(सुश्री) मोना भाटिया	01.10.2013
च	डी एस-12066 एच	मेजर	(सुश्री) श्वेता पाटक	21.10.2013
छ	डी एस-12081एल	मेजर	अरुण तँवर	02.11.2013

थलसेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन से मेजर के पद पर

क्रम सं.	निजी संख्या	पद	नम	
1	2	3	4	5
क	डी एस -12319एम	कप्तान	टेंभरे रजनीकांत ईश्वर	05.07.13
ख	डी एस -12320एफ	कप्तान	बेल्लुब्बी पवन कुमार मधुसूदन	05.07.13
ग	डी एस -12323पी	कप्तान	रवीन्द्र पाल सिंह राणा	05.07.13
घ	डी एस -12325ए	कप्तान	सौरभ जगनानी	08.07.13
ड.	डी एस -12328एन	कप्तान	कामेन्द्र कुमार सिंह	12.07.13
च	डी एस -12329डब्ल्यू	कप्तान	शशि कान्त शर्मा	12.07.13
छ	डी एस -12330एल	कप्तान	मनीष गुप्ता	14.07.13
ज	डी एस -12331एन	कप्तान	प्रमोद कुमार चाहर	15.07.13
झ	डी एस -12333वाई	कप्तान	गौतम कपूर	16.07.13
ण	डी एस -12335के	कप्तान	विवेक कुमार सिंह	17.07.13
त	डी एस -12336एम	कप्तान	राजेश कुमार साह	19.07.13
थ	डी एस -12337पी	कप्तान	दीपांकुर पोपली	19.07.13
द	डी एस -12338एक्स	कप्तान	अभिषेक मिश्रा	19.07.13
ध	डी एस -12340पी	कप्तान	वायंनगर अक्षय मधुकर	20.07.13
न	डी एस -12341एक्स	कप्तान	अरुल के	20.07.13
प	डी एस -12346डब्ल्यू	कप्तान	अभिषेक राय	17.08.13
फ	डी एस -12358एल	कप्तान	मुनीष कुमार	22.08.13
ब	डी एस -12360एच	कप्तान	तनुज मेंदीरत्ता	24.08.13
भ	डी एस -12362एन	कप्तान	विनय सिंह परिहार	26.08.13
म	डी एस -12347वाई	कप्तान	सतनाम सिंह	06.09.13

1	2	3	4	5
य	डी एस -12348एफ	कप्तान	अनुपम गुप्ता	13.09.13
र	डी एस -12349के	कप्तान	वरुण निश्चल	15.09.13
ल	डी एस -12350वाई	कप्तान	अमितोज सिंह	18.09.13
व	डी एस -12351एफ	कप्तान	रोहित ठाकुर	20.09.13

थलसेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थाई कमीशन)

कैप्टन से मेजर के पद पर

क्रम सं.	निजी संख्या	पद	नम	
क	डी आर-10676डब्ल्यू	कैप्टन	टी बालासुंदरम	22-07-2013
ख	डी आर-10629 वाई	कैप्टन	रोहन भोइल	04-08-2013

एच एस संधू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

सेना शाखा

सं. 117, दिनांक 29 अप्रैल 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन अनिल वलैहरा	(टीए-42606)	(इन्फैन्ट्री)	03 जून 2013
कैप्टन कीर्तिकुमार एन दवे	(टीए-42653)	(इन्फैन्ट्री)	13 अक्टूबर 2013
कैप्टन कुमार शर्मा	(टीए-42659)	(इन्फैन्ट्री)	15 जनवरी 2014

कैप्टन बनाया जाता है

लै0 जितेन्द्र सिंह	टीए-42713	(इन्जीनियर टीए)	24 अप्रैल 2012
लै0 एस0 एन0 कारजगी	टीए-42714	(इन्जीनियर टीए)	30 जून 2012
लै0 जी0 सी0 राजशेखर	टीए-42734	(इन्जीनियर टीए)	26 मई 2013
लै0 कुलदीप सिंह गुसाईं	टीए-42775	(इन्जीनियर टीए)	07 दिसम्बर 2013
लै. एजाज अहमद डार	टीए-42761	(इन्फैन्ट्री)	05 जनवरी 2014

ऋतु शर्मा
अवर सचिव

थल सेना विभाग

संख्या 118, दिनांक 30 अप्रैल 2014—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

ब्रीगेड ऑफ दी गार्ड्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार राजवीर सिंह	(जेसी-403357पी)	06 फरवरी 2014•
---------------------	-----------------	----------------

•(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है)

सूबेदार सोहन लाल	(जेसी-403827पी)	01 मार्च 2014
------------------	-----------------	---------------

सूबेदार ब्रज किशोर	(जेसी-403661वाई)	08 मार्च 2014•
--------------------	------------------	----------------

•(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार संतोष कुमार एन	(जेसी-404360एफ)	01 जनवरी 2014
-----------------------------	-----------------	---------------

नायब सूबेदार त्रिभूवन सिंह	(जेसी-404555एफ)	01 जनवरी 2014
----------------------------	-----------------	---------------

नायब सूबेदार श्रवण कुमार दूबे	(जेसी-404285एच)	01 जनवरी 2014
-------------------------------	-----------------	---------------

नायब सूबेदार महेन्द्र कुमार मिश्रा	(जेसी-404287एन)	01 फरवरी 2014
------------------------------------	-----------------	---------------

नायब सूबेदार बक्षी सिंह	(जेसी-404489पी)	01 जनवरी 2014
-------------------------	-----------------	---------------

नायब सूबेदार मोहन फूकन	(जेसी-404490के)	09 जनवरी 2014•
------------------------	-----------------	----------------

•(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बलवान सिंह	(जेसी-404718पी)	01 फरवरी 2014•
-------------------------	-----------------	----------------

•(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अहलद राजाराम गोन्दाणे	(जेसी-404760एन)	13 जनवरी 2014•
------------------------------------	-----------------	----------------

•(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कैलाश नाथ त्रिपाठी	(जेसी-404746एफ)	01 जनवरी 2014
---------------------------------	-----------------	---------------

नायब सूबेदार बिनोद कुमार चौधारी	(जेसी-404739एल)	05 जनवरी 2014•
---------------------------------	-----------------	----------------

•(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है)

नायब सूबेदार हकीकत राय	(जेसी-404633वाई)	01 फरवरी 2014
------------------------	------------------	---------------

नायब सूबेदार सोरन चंद	(जेसी-404551एल)	13 जनवरी 2014•
-----------------------	-----------------	----------------

•(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जोगींदर सिंह	(जेसी-404468वाई)	11 जनवरी 2014•
---------------------------	------------------	----------------

•(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है)

नायब सूबेदार ब्रह्म सिंह गुर्जर	(जेसी-404504वाई)	01 फरवरी 2014
---------------------------------	------------------	---------------

नायब सूबेदार विनोद व्हीव्ही	(जेसी-404361के)	18 जनवरी 2014•
-----------------------------	-----------------	----------------

•(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जनवरी 2014 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बाल किशन	(जेसी-404561ए)	01 फरवरी 2014
-----------------------	----------------	---------------

नायब सूबेदार महीपाल सिंह	(जेसी-404709पी)	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार पेरीकटला चेंदी नायडू	(जेसी-404362एम)	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार राकेश सिंह	(जेसी-404445एक्स)	12 फरवरी 2014•
•(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार शिव करन सिंह	(जेसी-404502एन)	20 फरवरी 2014•
•(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार बी सुब्रमनीयन	(जेसी-404503डब्ल्यू)	12 फरवरी 2014•
•(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार राजेश कुमार	(जेसी-404595एन)	13 फरवरी 2014•
•(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार सुभाष चंदर	(जेसी-404607एक्स)	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार अली अहमद	(जेसी-404559एच)	08 फरवरी 2014•
•(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 फरवरी 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार शैलेश कुमार ठाकुर	(जेसी-403960एक्स)	11 फरवरी 2014•
•(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार भंबर लाल मीना	(जेसी-404592ए)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार मदन लाल	(जेसी-404191एल)	03 मार्च 2014•
•(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार महेश कुमार कुशबाह	(जेसी-404271एच)	03 मार्च 2014•
•(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार लखन लाल गुर्जर	(जेसी-404274डब्ल्यू)	03 मार्च 2014•
•(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार खुशी राम	(जेसी-404275वाई)	03 मार्च 2014•
•(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार अरविंद कुमार	(जेसी-404556पी)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार मनी राम छेत्री	(जेसी-404526एक्स)	14 मार्च 2014•
•(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार त्रिलोक सिंह	(जेसी-404451डब्ल्यू)	20 मार्च 2014•
•(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है)		
सूबेदार (एस के टी) के रैंक में		
नायब सूबेदार (एस के टी) रथेश कुमार एन	(जेसी-404163वाई)	01 जनवरी 2014
सूबेदार (क्लर्क एस डी) के रैंक में		
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) हरफूल राम	(जेसी-404510एम)	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) राजपाल सिंह यादव	(जेसी-404531एच)	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) शाजी पी	(जेसी-404532एल)	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) गुरवेली वैयकुन्टा राव	(जेसी-404557एक्स)	06 मार्च 2014•
•(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है)		

नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) एन वैन्कटा राव	(जेसी-404572एम)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) मोहम्मद असलम खान	(जेसी-404577एल)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) प्रदीप कुमार	(जेसी-404583वाई)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) ब्रज किशोर ओझा	(जेसी-404597वाई)	01 मार्च 2014
मैकानाइज्ड इन्फेन्ट्री रेजिमेन्ट		
सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में		
सूबेदार (लिपिक) पवार मारुती श्रीपति	(जेसी-420689 पी)	01 जनवरी 2014
सूबेदार (लिपिक) के रैंक में		
नायब सूबेदार (लिपिक) पी जेम्स	(जेसी-421994 एन)	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) लाल सिंह यादव	(जेसी-422195 के)	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) संजय कुमार	(जेसी-421995 डब्ल्यू)	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) के व्ही रामी रेड्डी	(जेसी-422018 के)	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) मानकू श्रीनिवासुलु	(जेसी-422019 एम)	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) प्रफुला कुमार साहू	(जेसी-422055 एक्स)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) वाघेला सुर सिंह भूपत सिंह	(जेसी-422103 एम)	08 मार्च 2014•
• [सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है।]		
नायब सूबेदार (लिपिक) संजय कुमार सिंह	(जेसी-422105 एक्स)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) हरी सिंह	(जेसी-422139 एल)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) ए विन्सेंट	(जेसी-422140 ए)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में		
हवलदार(लिपिक) कौशल कुमार	(14918120एन अब जेसी-422549एफ)	01 जनवरी 2014
हवलदार(लिपिक) शेख चिना इमामसा	(14920973के अब जे सी-422550 डब्ल्यू)	01 जनवरी 2014
हवलदार(लिपिक) सुलखन कुमार	(14921036 वाई अब जे सी-422551 वाई)	01 जनवरी 2014
हवलदार(लिपिक) श्रीहरी एचएस	(14921048 एन अब जे सी-422552 एफ)	01 फरवरी 2014
हवलदार(लिपिक) गिरीश कुमार पाठी	(14921183 एफ अब जे सी-422553 के)	01 फरवरी 2014
हवलदार(लिपिक) रनवीर सिंह	(14922212 एक्स अब जे सी-422555 पी)	01 मार्च 2014
हवलदार(लिपिक) सुभाष चन्द्र मन्ना	(14922820 वाई अब जे सी-422556 एक्स)	01 मार्च 2014
हवलदार(लिपिक) एम प्रभूवेल	(14920844 के अब जे सी-422557 ए)	01 मार्च 2014
हवलदार(लिपिक) सुनील कुमार	(14920730 वाई अब जे सी-422558 एच)	01 मार्च 2014
हवलदार(लिपिक) फतेह राम	(14921267 पी अब जे सी-422559 एल)	01 मार्च 2014
सूबेदार मेजर के रैंक में		
सूबेदार मनबीर सिंह	(जेसी-420962 वाई)	01 मार्च 2014
सूबेदार के रैंक में		
नायब सूबेदार राजू कुमार सिंह	(जेसी-421855 के)	05 जुलाई 2013•
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार कुलबीर सिंह	(जेसी-421740 डब्ल्यू)	07 जनवरी 2014•
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार पी मुरुगेसन	(जेसी-421540 ए)	01 जनवरी 2014

नायब सूबेदार राम रत्न	(जे सी-421619 एच)	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार विनोद कुमार	(जेसी-421743 के)	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार खिम सिंह सेलाकोटी	(जे सी-421777 एक्स)	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार अइयैप्पा ए बी	(जेसी-421808 एम)	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार रामा कान्त सिंह	(जेसी-421908 एक्स)	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार अशिम कुमार सरकार	(जेसी-422014 एन)	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार मनोज कुमार सिंह	(जेसी-422015 डब्ल्यू)	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार राम अवतार	(जेसी-422044 एल)	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार जर्नादन सिंह	(जेसी-421579 एम)	18 फरवरी 2014•

• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 फरवरी 2014 से दी जाती है)

नायब सूबेदार एस राधा क्रिशनन	(जेसी-421643 वाई)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार श्री पाल	(जेसी-421685 एल)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार अर्जुन कोलम्बकर	(जेसी-421744 एम)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार रमेश कुमार भोलयान	(जेसी-421873 एम)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार चंद्र भान	(जेसी-421887 एम)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार तिलक राज	(जेसी-421924 पी)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार आनंद सिंह	(जेसी-421927 एच)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार हरबंस लाल	(जेसी-421933 डब्ल्यू)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार रमेश चंद	(जेसी-421983 एफ)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार सुधाकरन एम ई	(जेसी-421993 एल)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार प्रदीप कुमार अचारिन्दाविदा	(जेसी-421998 के)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार अनिल कुमार	(जेसी-422057 एच)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार रमेश चंद्र स्वैन	(जे सी-422082 एफ)	18 मार्च 2014•

• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है)

नायब सूबेदार नंदा लाल गोराई	(जेसी-422083 के)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार परमजीत सिंह	(जेसी-422115 एफ)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार राम सेवक मिस्त्री	(जेसी-422131 वाई)	03 मार्च 2014•

• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुनिल सिवानी	(जेसी-422160 एन)	01 मार्च 2014
---------------------------	------------------	---------------

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार धनंजय सिंह अघारिया	(14920560 ए अब जे सी-422560 ए)	05 दिसम्बर 2013•
---------------------------	--------------------------------	------------------

• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जाती है)

हवलदार कृष्णा अवतार सिंह	(14921290 एच अब जेसी-422561 एच)	01 जनवरी 2014•
--------------------------	---------------------------------	----------------

• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जाती है)

हवलदार सैद मस्थान	(14920483 डब्ल्यू अब जेसी-422562 एल)	23 नवम्बर 2013•
-------------------	--------------------------------------	-----------------

• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जाती है)

हवलदार दिनेश लाल	(14917728 डब्ल्यू अब जेसी-422563 एन)	02 दिसम्बर 2013•
------------------	--------------------------------------	------------------

• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जाती है)

हवलदार जया सिया राम	(14919279 एल अब जेसी-422564 डब्ल्यू)	01 जनवरी 2014
हवलदार श्री भगवान मिश्रा	(14920578 डब्ल्यू अब जेसी-422565 वाई)	26 जनवरी 2014•
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है)		
हवलदार सी गणेशन	(14920605 पी अब जेसी-422566 एफ)	01 जनवरी 2014
हवलदार येलुकोटि डी एस	(14920743 डब्ल्यू अब जेसी-422567 के)	01 जनवरी 2014
हवलदार गौरी शंकर अश्वधाति	(14920866 एच अब जेसी-422568 एम)	01 जनवरी 2014
हवलदार ए जयाप्रकाश	(14919584 एक्स अब जेसी-422569 पी)	24 फरवरी 2014•
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जनवरी 2014 से दी जाती है)		
हवलदार सत्यावीर	(14919185 एन अब जेसी-422570 के)	06 फरवरी 2014•
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है)		
हवलदार संजय कुमार	(14918538 डब्ल्यू अब जेसी-422571 एम)	01 फरवरी 2014
हवलदार बिनोद सिंह	(14919148 ए अब जेसी-422572 पी)	01 फरवरी 2014
हवलदार आर अरुलसामी	(14920863 पी अब जेसी-422573 एक्स)	01 फरवरी 2014
हवलदार सुनिल कुमार	(1490900 एक्स अब जेसी-422574 ए)	01 फरवरी 2014
हवलदार सत्ता राम	(14922683 एल अब जेसी-422575 एच)	04 फरवरी 2014•
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है)		
हवलदार देवी दयाल	(14920980 ए अब जेसी-422576 एल)	01 फरवरी 2014
हवलदार भारत सिंह	(14919774 के अब जेसी-422577 एन)	01 फरवरी 2014•
हवलदार जी मारी मुथु	(14919298 डब्ल्यू अब जेसी-422578 डब्ल्यू)	11 मार्च 2014•
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 फरवरी 2014 से दी जाती है)		
हवलदार अनिल कुमार यादव	(14917668 एम अब जेसी-422579 वाई)	01 मार्च 2014
हवलदार नंदालाल सिंह यादव	(14918002 ए अब जे सी-422580 एन)	01 मार्च 2014
हवलदार फूल सिंह	(14917263 एफ अब जेसी-422581 डब्ल्यू)	01 मार्च 2014
हवलदार जेम्स एस	(14918474 डब्ल्यू अब जेसी-422582 वाई)	11 मार्च 2014•
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है)		
हवलदार राधे श्याम कुमार	(14917969 डब्ल्यू अब जेसी-422583 एफ)	01 मार्च 2014
हवलदार रविन्दर कुमार	(14919896 एन अब जेसी-422584 के)	01 मार्च 2014
हवलदार छोटे लाल यादव	(14918307 ए अब जेसी-422585 एम)	01 मार्च 2014
हवलदार विनेश कुमार	(14920052 के अब जेसी-422586 पी)	10 मार्च 2014•
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है)		
हवलदार वेन्कटा रमाना वान्दारानि	(14920608 एच अब जेसी-422587 एक्स)	10 मार्च 2014•
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है)		
हवलदार देबाराज महंता	(14920929 ए अब जेसी-422588 ए)	01 मार्च 2014
हवलदार सुरजीत कुमार	(14921312 डब्ल्यू अब जेसी-422589 एच)	01 मार्च 2014
हवलदार परवीन सिंह	(14921313 वाई अब जेसी-422590 एक्स)	01 मार्च 2014
हवलदार सुन्दर सिंह	(14921355 एल अब जेसी-422591 ए)	01 मार्च 2014
हवलदार संजय कुमार	(14921359 एफ अब जेसी-422592 एच)	01 मार्च 2014

हवलदार शमशेर सिंह	(14922005 एल अब जेसी-422593 एल)	01 मार्च 2014
हवलदार सरवनन व्ही	(14919080 के अब जेसी-422594 एन)	01 मार्च 2014
हवलदार राजेन्द्र कुमार	(14921722 एम अब जेसी-422595 डब्ल्यू)	01 मार्च 2014
हवलदार रुपा कठात	(2485054 डब्ल्यू अब जेसी-422596 वाई)	10 मार्च 2014•
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है)		
हवलदार बसंत लाल	(14917992 के अब जेसी-422597 एफ)	01 मार्च 2014
हवलदार संग्राम शेखर सुंदारे	(14918110 के अब जेसी-422598 के)	01 मार्च 2014
हवलदार बिद्युत बेरा	(14920596 वाई अब जेसी-422599 एम)	01 मार्च 2014
हवलदार बैजु मोन ऐन्टोनी	(14921138 पी अब जेसी-422600 डब्ल्यू)	01 मार्च 2014
हवलदार रंजीत सिंह रावत	(14918370 पी अब जेसी-422601 वाई)	01 अप्रैल 2014
हवलदार गंगा राम	(14919709 के अब जेसी-422602 एफ)	01 अप्रैल 2014
हवलदार के पलानिसामी	(14921585 वाई अब जेसी-422603 के)	01 अप्रैल 2014
हवलदार वाघ विष्णु भुजंगराव	(14919786 वाई अब जेसी-422604 एम)	01 अप्रैल 2014
हवलदार डांबेर सिंह मनजेर	(14919140 एन अब जेसी-422605 पी)	01 अप्रैल 2014
हवलदार दलबीर सिंह	(14922988 एल अब जेसी-422606 एक्स)	01 अप्रैल 2014

कवचित कोर

स्थायी रिसालदार मेजर के रैंक में

रिसालदार	यश पाल सिंह	(जेसी-242863एम)	01 फरवरी 2013
रिसालदार	तेज पाल सिंह	(जेसी-242597वाई)	01 जून 2013
रिसालदार	जगिर सिंह	(जेसी-244165एच)	*20 अगस्त 2013

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जाती है)

रिसालदार	शिव कुमार	(जेसी-242493एक्स)	01 सितम्बर 2013
रिसालदार	करन सिंह	(जेसी-242563एल)	01 दिसम्बर 2013
रिसालदार	श्री कृष्ण	(जेसी-243197वाई)	01 जनवरी 2014
रिसालदार	दुली चन्द	(जेसी-243633एल)	01 जनवरी 2014
रिसालदार	शैतान सिंह	(जेसी-242988के)	01 फरवरी 2014
रिसालदार	चनन सिंह	(जेसी-241495डब्ल्यू)	01 मार्च 2014
रिसालदार	बालाकृष्णन के	(जेसी-241979डब्ल्यू)	*15 मार्च 2014

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है)

रिसालदार	राम कुमार	(जेसी-243040वाई)	*03 मार्च 2014
----------	-----------	-------------------	----------------

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है)

स्थायी रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार	महेश कुमार शर्मा	(जेसी-243351एम)	01 जनवरी 2013
नायब रिसालदार	विरेन्द्रा प्रताप सिंह	(जेसी-244925ए)	01 फरवरी 2014
नायब रिसालदार	हरजीत सिंह	(जेसी-244886एम)	*10 दिसम्बर 2013

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जाती है)

नायब रिसालदार	भारत सिंह	(जेसी-244924एक्स)	*02 दिसम्बर 2013
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	पाटील नारायण मुकुन्दा	(जेसी-244689के)	*20 जनवरी 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	विनीत कुमार	(जेसी-244730पी)	01 जनवरी 2014
नायब रिसालदार	एम चन्द्राहासा राजु	(जेसी-244807एम)	*03 फरवरी 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	जगदीश कुमार	(जेसी-244841एम)	01 जनवरी 2014
नायब रिसालदार	साहिब सिंह	(जेसी-245296ए)	*05 जनवरी 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	बिशान सिंह	(जेसी-245270एल)	*27 जनवरी 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जनवरी 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	बलवान सिंह	(जेसी-244780ए)	*03 मार्च 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जनवरी 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	राज दीप सिंह	(जेसी-243565एच)	01 फरवरी 2014
नायब रिसालदार	देव दत्त	(जेसी-243789एच)	*10 फरवरी 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	कमल कान्त	(जेसी-243866एम)	01 फरवरी 2014
नायब रिसालदार	लखविन्दर सिंह	(जेसी-244375एच)	01 फरवरी 2014
नायब रिसालदार	जसपाल सिंह	(जेसी-244393एल)	01 फरवरी 2014
नायब रिसालदार	सुभाष	(जेसी-244728एक्स)	01 फरवरी 2014
नायब रिसालदार	शेख मोहम्मद अखील एम	(जेसी-244731एक्स)	01 फरवरी 2014
नायब रिसालदार	कमलजीत सिंह	(जेसी-244794ए)	01 फरवरी 2014
नायब रिसालदार	हरी नंदन सिंह	(जेसी-244928एन)	*04 फरवरी 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	राजा शेखर इनागी	(जेसी-244929डब्ल्यू)	01 फरवरी 2014
नायब रिसालदार	गौतम मंडल	(जेसी-244930एल)	*03 मार्च 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	अनुप कुमार	(जेसी-245009एल)	01 फरवरी 2014
नायब रिसालदार	शिंदे नाना साहेब यशवंत	(जेसी-244105एन)	01 मार्च 2014
नायब रिसालदार	रंजीत सिंह	(जेसी-244370के)	01 मार्च 2014
नायब रिसालदार	मेघ सिंह	(जेसी-244487एच)	01 मार्च 2014
नायब रिसालदार	जगजीत सिंह	(जेसी-244489एन)	01 मार्च 2014
नायब रिसालदार	रमेन्द्रा कुमार	(जेसी-244526डब्ल्यू)	01 मार्च 2014
नायब रिसालदार	विरपाल सिंह	(जेसी-244592वाई)	01 मार्च 2014
नायब रिसालदार	जय प्रकाश	(जेसी-244671एन)	*03 मार्च 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है)			

नायब रिसालदार	दिवाकर पाण्डे	(जेसी-244983के)	01 मार्च 2014
नायब रिसालदार	अल्ला बक्श नाकयर	(जेसी-244984एम)	01 मार्च 2014

राजीव जौहरी
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 119, दिनांक 1 मई 2014—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:—

नियमित सेना

सेना शिक्षा कोर

सुबेदार मेजर रैंक में

सुबेदार	मधुसूदन ए	जेसी-803075के	01 अक्टूबर 2013
सुबेदार	जयविन्दर सिंह	जेसी-803080पी	01 अक्टूबर 2013
सुबेदार	सतपाल	जेसी-803087वाई	01 नवम्बर 2013
सुबेदार	दिनेश चन्द्र	जेसी-803090वाई	@02 दिसम्बर 2013
@सुबेदार मेजर के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
सुबेदार	लखी कांत मिश्रा	जेसी-803120एल	01 दिसम्बर 2013
सुबेदार	हनुमान दत्त मिश्रा	जेसी-803058के	#02 जनवरी 2014
सुबेदार	रवीन्द्र गोस्वामी	जेसी-803061के	#02 जनवरी 2014
सुबेदार	भाग चन्द जाट	जेसी-803130पी	01 जनवरी 2014
सुबेदार	कमल सिंह नेगी	जेसी-803158पी	01 जनवरी 2014
#सुबेदार मेजर के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी।			
सुबेदार	धर्मवीर सिंह खत्री	जेसी -803169एफ	*03 फरवरी 2014
सुबेदार	पन्ना राम	जेसी -803177ए	01 फरवरी 2014
*सुबेदार मेजर के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।			

सुबेदार	अशोक कुमार राठी	जेसी-803025वाई	# 08 जून 2013
सुबेदार	सुभाष चन्द्र	जेसी-803056वाई	# 24 जून 2013
# सुबेदार मेजर के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी।			
सुबेदार	महेन्द्र सिंह	जेसी-803057एफ	@08 जुलाई 2013
@ सुबेदार मेजर के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी।			
सुबेदार	मदन सिंह रावत	जेसी-803060एफ	*19 अगस्त 2013

सुबेदार	नन्द लाल अरोडा	जेसी-803069डब्ल्यू	*16 अगस्त 2013
*सुबेदार मेजर के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी।			
सुबेदार	बिनोद बल्लभ	जे सी 803072डब्ल्यू	01 सितम्बर 2013

सुबेदार रैंक में

नायब सुबेदार	अमर नाथ प्रसाद	जेसी-803963वाई	# 10 अक्टूबर 2013
नायब सुबेदार	सुदिष्ट नारायण चौधरी	जेसी-803964एफ	# 01 अक्टूबर 2013
# सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जून 2013 से दी जायेगी।			
नायब सुबेदार	भानु प्रताप राघव	जेसी-803984पी	@28 सितम्बर 2013
@सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जून 2013 से दी जायेगी।			
नायब सुबेदार	श्रवण कुमार यादव	जेसी-804014वाई	*17 अगस्त 2013
*सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी।			
नायब सुबेदार	रोशन लाल	जेसी-804032एफ	\$17 सितम्बर 2013
\$सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी।			
नायब सुबेदार	कैलाश चन्द्र	जेसी-804048एम	#01 अक्टूबर 2013
# सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी।			
नायब सुबेदार	बलबीर सिंह	जेसी-804051एम	01 नवम्बर 2013
नायब सुबेदार	आशा राम राठौर	जेसी-804052पी	01 नवम्बर 2013
नायब सुबेदार	दीपक कुमार रावत	जेसी-804053एक्स	@11 नवम्बर 2013
नायब सुबेदार	दया शंकर तिवारी	जेसी-804054ए	01 नवम्बर 2013
@सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी।			
नायब सुबेदार	मनोहर सतोगिया	जेसी-804055एच	01 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	राम सिंह	जेसी-804057एन	01 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	विरेन्द्र सिंह	जेसी-804059वाई	01 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	नरेन्द्र कुमार शर्मा	जेसी-804060एन	01 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	प्रेमवीर सिंह	जेसी-804061डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	गोविन्दा	जेसी-804062वाई	01 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	रामनारायण यादव	जेसी-804065एम	01 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	कृष्ण पाल सिंह सिकरवार	जेसी-804066पी	*02 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	शशि कुमार पराशर	जेसी-804067एक्स	*04 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	सीता राम	जेसी-804068ए	*03 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	नवीन कुमार सिंह	जेसी-804069एच	01 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	शक्ति ब्रत दे	जेसी-804070एक्स	*02 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	शिव प्रसाद मिश्र	जेसी-804072एच	*05 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	रवि चन्द्र प्रकाश	जेसी-804073एल	*02 दिसम्बर 2013

नायब सुबेदार	मोती लाल	जेसी—804074एन	01 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	मुकेश कुमार अदलखा	जेसी—804075डब्ल्यू	*03 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	ओम प्रकाश	जेसी—804077एफ	*02 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	जगदीश चन्द्र सिंह	जेसी—804078के	*02 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	रामचन्द्र बारिक	जेसी—804080एफ	*02 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	राम दास	जेसी—804082एम	01 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	मुहम्मद रिहान	जेसी—804083पी	*05 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	योगेन्द्र प्रताप सिंह	जेसी—804084एक्स	01 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	रेघुकुमारन नायर पि	जेसी—804085ए	*03 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	राजीवन ई के	जेसी—804086एच	*02 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	जोशी गुरुनाथ हरि	जेसी—804087एल	*02 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	अवतार सिंह	जेसी—804088एन	01 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	मनबर सिंह कपरुवान	जेसी—804089डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	राजेश कुमार मुवर	जेसी—804090एल	*02 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	सुखदेव	जेसी—804091एन	*02 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	राजवीर पुनियाँ	जेसी—804093वाई	01 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	महेन्द्र पाल	जेसी—804094एफ	*03 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	राज कुमार सरोहा	जेसी—804095के	*02 दिसम्बर 2013
नायब सुबेदार	सुरेन्द्र कुमार	जेसी—804097पी	01 दिसम्बर 2013
* सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी ।			
नायब सुबेदार	राजेश बाबू	जेसी—804098एक्स	01 जनवरी 2014
नायब सुबेदार	धीरेन्द्र सिंह नेगी	जेसी—804099ए	01 जनवरी 2014
नायब सुबेदार	बहादूर सिंह	जेसी—804101एम	01 जनवरी 2014
नायब सुबेदार	प्रेम चन्द	जेसी—804102पी	01 जनवरी 2014
नायब सुबेदार	अशोक कुमार	जेसी—804103एक्स	\$06 जनवरी 2014
नायब सुबेदार	ब्रजेन्द्र सिंह	जेसी—804104ए	01 जनवरी 2014
नायब सुबेदार	प्रसन्ना कुमार आर	जेसी—804106एल	01 जनवरी 2014
नायब सुबेदार	डि मणिकण्डन	जेसी—804108डब्ल्यू	01 जनवरी 2014
नायब सुबेदार	राकेश कुमार	जेसी—804110एन	01 जनवरी 2014
नायब सुबेदार	सुभाष चन्द्र	जेसी—804111डब्ल्यू	01 जनवरी 2014
नायब सुबेदार	बिरेंद्र कुमार मिश्र	जेसी—804112वाई	01 जनवरी 2014
नायब सुबेदार	संतोष कुमार तिवारी	जेसी—804113एफ	01 जनवरी 2014
नायब सुबेदार	बलविन्द्र सिंह	जेसी—804114के	01 जनवरी 2014

नायब सुबेदार	राम प्रकाश	जेसी-804115एम	01 जनवरी 2014
नायब सुबेदार	प्रमोद कुमार	जेसी-804116पी	01 जनवरी 2014
नायब सुबेदार	रामकिशन	जेसी-804117एक्स	01 जनवरी 2014
नायब सुबेदार	राम प्रकाश सिन्हा	जेसी-804119एच	01 जनवरी 2014
नायब सुबेदार	दीपक कुमार वर्मा	जेसी-804120एक्स	01 जनवरी 2014
नायब सुबेदार	सदानन्दन जी	जेसी-804121ए	\$08 जनवरी 2014
नायब सुबेदार	राकेश कुमार	जेसी-804122एच	01 जनवरी 2014
नायब सुबेदार	मोहम्मद सलाहउद्दीन	जेसी-804123एल	01 जनवरी 2014
नायब सुबेदार	राजीव एन	जेसी-804124एन	01 जनवरी 2014
नायब सुबेदार	त्रिलोक सिंह	जेसी-804125डब्ल्यू	01 जनवरी 2014
\$ सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी ।			
नायब सुबेदार	महेन्द्र सिंह राठौड़	जेसी-804126वाई	01 फरवरी 2014
नायब सुबेदार	सुरेश बाबू पाराई	जेसी-804127एफ	01 फरवरी 2014
नायब सुबेदार	राकेश कुमार	जेसी-804129एम	01 फरवरी 2014
नायब सुबेदार	देवी सिंह	जेसी-804131के	01 फरवरी 2014
नायब सुबेदार	सरदारी लाल	जेसी-804132एम	01 फरवरी 2014
नायब सुबेदार	रमेश बाबू केएस	जेसी-804134एक्स	01 फरवरी 2014
नायब सुबेदार	कुमारन सी एम	जेसी-804356एम	*01 अक्टूबर 2013
* सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी ।			
नायब सुबेदार	जसवीर सिंह	जेसी-804455पी	01 जनवरी 2014
नायब सुबेदार	हेमराज सिंह	जेसी-804460ए	01 जनवरी 2014
नायब सुबेदार	महेन्द्र सिंह	जेसी-803917के	#11 दिसम्बर 2012
# सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी ।			
नायब सुबेदार	गोपाल सिंह	जेसी-803996के	@13 मई 2013
नायब सुबेदार	राकेश शर्मा	जेसी-803998पी	@23 मई 2013
नायब सुबेदार	रमेश कुमार	जेसी-803999एक्स	01 मई 2013
@सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी ।			
नायब सुबेदार	नवाब सिंह	जेसी-804001एफ	*10 जुलाई 2013
नायब सुबेदार	रज्जन प्रसाद	जेसी-804002के	*05 जुलाई 2013
नायब सुबेदार	प्रमोद कुमार मिश्र	जेसी-804003एम	*12 जून 2013
नायब सुबेदार	श्री कृष्ण	जेसी-804004पी	*12 जून 2013

नायब सुबेदार	महावीर सिंह	जेसी-804005एक्स	*04 जुलाई 2013
नायब सुबेदार	ज्ञान प्रकाश सिंह	जेसी-804006ए	*22 जुलाई 2013
नायब सुबेदार	शिव कुमार	जेसी-804007एच	*05 जुलाई 2013
नायब सुबेदार	श्री बलवंत सिंह बोरा	जेसी-804013डब्ल्यू	*25 जुलाई 2013
नायब सुबेदार	गौरांग चरण प्रधान	जेसी-804015एफ	*20 जून 2013
नायब सुबेदार	राकेश मोहन सिंह रावत	जेसी-804016के	*22 जून 2013
नायब सुबेदार	अनिमेष आचार्य	जेसी-804017एम	*03 जुलाई 2013
नायब सुबेदार	सुबोध कुमार गुप्ता	जेसी-804018पी	*07 अगस्त 2013
नायब सुबेदार	विनोद कुमार	जेसी-804019एक्स	*12 जुलाई 2013
*सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी ।			
नायब सुबेदार	कमल किशोर जोशी	जेसी-804020एम	01 जुलाई 2013
नायब सुबेदार	राजीवन कोलौन	जेसी-804021पी	\$11 जुलाई 2013
नायब सुबेदार	भूपाल सिंह	जेसी-804022एक्स	\$10 जुलाई 2013
नायब सुबेदार	सत्य वीर सिंह	जेसी-804023ए	\$16 अगस्त 2013
नायब सुबेदार	चन्द्रभूषण तिवारी	जेसी-804024एच	\$29 जुलाई 2013
नायब सुबेदार	रमेश चन्द्रा	जेसी-804025एल	\$10 जुलाई 2013
नायब सुबेदार	सवाई सिंह बाकावत	जेसी-804026एन	01 जुलाई 2013
नायब सुबेदार	अशोक सिंह	जेसी-804027डब्ल्यू	01 जुलाई 2013
नायब सुबेदार	दलजीत सिंह	जेसी-804028वाई	\$12 जुलाई 2013
नायब सुबेदार	संजय कुमार झा	जेसी-804029एफ	\$18 जुलाई 2013
नायब सुबेदार	रमेश कुमार	जेसी-804030डब्ल्यू	\$15 जुलाई 2013
नायब सुबेदार	मदन लाल	जेसी-804031वाई	01 जुलाई 2013
\$सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी ।			

नायब सुबेदार	सुभाष चंद्र	जेसी-804033के	01 अगस्त 2013
नायब सुबेदार	जोप्पी के ए	जेसी-804034एम	#05 अगस्त 2013
नायब सुबेदार	रवि प्रकाश	जेसी-804035पी	01 अगस्त 2013
नायब सुबेदार	देवेंद्र कुमार सोनी	जेसी-804036एक्स	01 अगस्त 2013
नायब सुबेदार	भीम सिंह खाती	जेसी-804037ए	01 अगस्त 2013
नायब सुबेदार	राम लुभाया	जेसी-804038एच	01 अगस्त 2013
नायब सुबेदार	आर डी प्रसाद	जेसी-804039एल	01 अगस्त 2013
नायब सुबेदार	प्रदीप कुमार शर्मा	जेसी-804040ए	01 अगस्त 2013

नायब सुबेदार	राजेश कुमार उपाध्याय	जेसी-804042एल	@17 अगस्त 2013
नायब सुबेदार	उत्तम सिंह	जेसी-804043एन	#02 सितम्बर 2013
#सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी ।			
नायब सुबेदार	अवतार सिंह रावत	जेसी-804044डब्ल्यू	01 सितम्बर 2013
नायब सुबेदार	रमेशन सी	जेसी-804045वाई	@10 सितम्बर 2013
नायब सुबेदार	जगदीश चन्द्र पाण्डेय	जेसी-804046एफ	01 सितम्बर 2013
नायब सुबेदार	बजरंग लाल	जेसी-804047के	01 सितम्बर 2013
नायब सुबेदार	विद्यासागर	जेसी-804049पी	01 सितम्बर 2013
नायब सुबेदार	नरेश चन्द	जेसी-804050के	@03 सितम्बर 2013
@सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी ।			

नायब सुबेदार के रैंक में

हवलदार	अजय कुमार यादव	(सेनांक 9511841वाई अब जेसी-804819डब्ल्यू)	@02 सितम्बर 2013
हवलदार	अनुप गण	(सेनांक 9511848एच अब जेसी-804823वाई)	01 सितम्बर 2013
@नायब सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जाएगी ।			
हवलदार	अनुरुद्ध कुमार कुशवाहा	(सेनांक 9510760एम अब जेसी-804825के)	#05 अक्टूबर 2013
हवलदार	कृष्ण मोहन सिंह	(सेनांक 9511850ए अब जेसी-804826एम)	#11 नवम्बर 2013
हवलदार	प्रमोद कुमार मिश्रा	(सेनांक 9511852एल अब जेसी-804827पी)	#11 अक्टूबर 2013
हवलदार	नरेन्द्र कुमार झाखड़ा	(सेनांक 9511854डब्ल्यू अब जेसी-804828एक्स)	#21 अक्टूबर 2013
हवलदार	श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय	(सेनांक 9511855वाई अब जेसी-804829ए)	#23 अक्टूबर 2013
हवलदार	पवार भैरु श्रीपती	(सेनांक 9511858एम अब जेसी-804830पी)	#28 अक्टूबर 2013
# नायब सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जाएगी ।			
हवलदार	रमेश कुमार मिश्रा	(सेनांक 9511860के अब जेसी-804831एक्स)	01 नवम्बर 2013
हवलदार	प्रदीप कुमार साहू	(सेनांक 9511864ए अब जेसी-804832ए)	01 नवम्बर 2013
हवलदार	शिबू पी एस	(सेनांक 9511866एल अब जेसी-804833एच)	01 नवम्बर 2013
हवलदार	प्रधुम्न कुमार महापात्र	(सेनांक 9511871डब्ल्यू अब जेसी-804834एल)	01 नवम्बर 2013
हवलदार	लक्ष्मी कान्त पटनायक	(सेनांक 9511874के अब जेसी-804835एन)	01 नवम्बर 2013
हवलदार	पद्मा कुमार ए एस	(सेनांक 9511875एम अब जेसी-804836डब्ल्यू)	01 नवम्बर 2013
हवलदार	अजय कुमार नायक	(सेनांक 9511884एन अब जेसी-804837वाई)	*02 दिसम्बर 2013
हवलदार	दीपक कुमार पाईकराय	(सेनांक 9511886वाई अब जेसी-804838एफ)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	राजेश कुमार दुबे	(सेनांक 9511887एफ अब जेसी-804839के)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	सुरेश पाण्डेय	(सेनांक 9511889एम अब जेसी-804840वाई)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	यतेन्द्र सिंह	(सेनांक 9511894एक्स अब जेसी-804841एफ)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	विजय कुमार सिंह	(सेनांक 9511897एल अब जेसी-804842के)	*03 दिसम्बर 2013

हवलदार	सुर सुंदर नाथ	(सेनांक 9511902एल अब जेसी—804843एम)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	भारत सिंह रावत	(सेनांक 9511467एफ अब जेसी—804844पी)	*02 दिसम्बर 2013
हवलदार	सुरेश प्रसाद यादव	(सेनांक 1485711वाई अब जेसी—804845एक्स)	*02 दिसम्बर 2013
हवलदार	कृष्ण चन्द	(सेनांक 9511770एच अब जेसी—804846ए)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	श्री कमलेश कुमार सिंह	(सेनांक 9511921डब्ल्यू अब जेसी—804847एच)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	भरत सिंह	(सेनांक 9511923एफ अब जेसी—804848एल)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	सुरेश कुमार	(सेनांक 9511925एम अब जेसी—804849एन)	*02 दिसम्बर 2013
हवलदार	जयन्त कुमार चट्टोपाध्याय	(सेनांक 9511926पी अब जेसी—804850एच)	01 दिसम्बर 2013

हवलदार	प्रेम गिरि	(सेनांक 9511928ए अब जेसी—804851एल)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	राकेश कुमार शर्मा	(सेनांक 9511929एच अब जेसी—804852एन)	*02 दिसम्बर 2013
हवलदार	रवि क्षेत्री	(सेनांक 9511932एच अब जेसी—804853डब्ल्यू)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	प्रकाश शर्मा	(सेनांक 9511942एम अब जेसी—804854 वाई)	*02 दिसम्बर 2013
हवलदार	चेत राम	(सेनांक 9511945ए अब जेसी—804855एफ)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	अनन्त खत्री	(सेनांक 9511951एन अब जेसी—804856के)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	सुभाष चन्द्र	(सेनांक 9511960पी अब जेसी—804857एम)	*02 दिसम्बर 2013
हवलदार	लक्ष्मण सिंह गुसाई	(सेनांक 9511966डब्ल्यू अब जेसी—804858पी)	*02 दिसम्बर 2013
हवलदार	राजेश्वर सिंह गुलेरिया	(सेनांक 9511967वाई अब जेसी—804859एक्स)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	संतोष कुमार साहू	(सेनांक 9511972के अब जेसी—804860एम)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	राकेश कुमार राणा	(सेनांक 9511975एक्स अब जेसी—804861पी)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	राजीवन एन	(सेनांक 9511978एल अब जेसी—804862एक्स)	*02 दिसम्बर 2013
हवलदार	विनोद कुमार वी पी	(सेनांक 9511981एल अब जेसी—804863ए)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	बिक्रम सिंह	(सेनांक 9511986के अब जेसी—804864एच)	*02 दिसम्बर 2013
हवलदार	महेश कुमार भंडारी	(सेनांक 9511987एम अब जेसी—804865एल)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	राम अनमोल दुबे	(सेनांक 9511989एक्स अब जेसी—804866एन)	*02 दिसम्बर 2013
हवलदार	सुरेन्द्र कुमार चड्ढा	(सेनांक 9511990एम अब जेसी—804867डब्ल्यू)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	समीर सेंगर	(सेनांक 9511992एक्स अब जेसी—804868वाई)	*02 दिसम्बर 2013
हवलदार	अजीत सिंह	(सेनांक 9511993ए अब जेसी—804869एफ)	*02 दिसम्बर 2013
हवलदार	लाल बहादुर सिंह चौहान	(सेनांक 9511995एल अब जेसी—804870डब्ल्यू)	*02 दिसम्बर 2013
हवलदार	प्रकाश पारधी	(सेनांक 9511996एन अब जेसी—804871वाई)	01 दिसम्बर 2013

हवलदार	प्रकाश	(सेनांक 9511941के अब जेसी-804872एफ)	*01 जनवरी 2014
* नायब सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जाएगी।			
हवलदार	प्रकाशन वेल्लुवलप्पिल	(सेनांक 9511933एल अब जेसी-804875पी)	@15 जनवरी 2014
हवलदार	गौर चन्द्र राय	(सेनांक 9511936वाई अब जेसी-804876एक्स)	@01 जनवरी 2014
हवलदार	ब्राजेश कुमार	(सेनांक 9511949डब्ल्यू अब जेसी-804877ए)	@01 जनवरी 2014
हवलदार	श्रीकांत पाण्डेय	(सेनांक 9511950एल अब जेसी-804878एच)	@01 जनवरी 2014
हवलदार	सुरेन्द्र कुमार	(सेनांक 9511965एन अब जेसी-804879एल)	@01 जनवरी 2014
@नायब सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 दिसम्बर 2013 से दी जाएगी।			
हवलदार	सुभाष चंद	(सेनांक 9511927एक्स अब जेसी-804882एल)	#06 जनवरी 2014
हवलदार	अशोकन आर	(सेनांक 9511876पी अब जेसी-804880ए)	#22 जनवरी 2014
हवलदार	श्री रजनीकांत चतुर्वेदी	(सेनांक 9511938के अब जेसी-804883एन)	#08 जनवरी 2014
हवलदार	गिरधारी सिंह जोधा	(सेनांक 9511961एक्स अब जेसी-804884डब्ल्यू)	#17 जनवरी 2014
# नायब सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 दिसम्बर 2013 से दी जाएगी।			
हवलदार	जितेन्द्र कुमार	(सेनांक 9510774एम अब जेसी-804873के)	01 जनवरी 2014
हवलदार	दिनेश सिंह	(सेनांक 9510976एन अब जेसी-804874एम)	01 जनवरी 2014
हवलदार	ओमप्रकाश	(सेनांक 9511999एफ अब जेसी-804885वाई)	01 जनवरी 2014
हवलदार	कैलाश चन्द्र	(सेनांक 9512003डब्ल्यू अब जेसी-804886एफ)	*09 जनवरी 2014
हवलदार	ललित कुमार ठाकुर	(सेनांक 9512004वाई अब जेसी-804887के)	01 जनवरी 2014
हवलदार	पदम चन्द	(सेनांक 9512006के अब जेसी-804888एम)	01 जनवरी 2014
हवलदार	चित्तरंजन साहू	(सेनांक 9512009एक्स अब जेसी-804889पी)	01 जनवरी 2014

हवलदार	इक्बाल सिंह मन्द्रवाल	(सेनांक 9512010एम अब जेसी-804890के)	01 जनवरी 2014
हवलदार	रविन्दर सिंह	(सेनांक 9512012एक्स अब जेसी-804891एम)	01 जनवरी 2014
हवलदार	जितेन्द्र सिंह	(सेनांक 9512015एल अब जेसी-804892पी)	01 जनवरी 2014
हवलदार	तिलक राज	(सेनांक 9512016एन अब जेसी-804893एक्स)	*09 जनवरी 2014
हवलदार	प्रहलाद सिंह	(सेनांक 9512018वाई अब जेसी-804894ए)	01 जनवरी 2014
हवलदार	धर्मेन्द्र सिंह नेगी	(सेनांक 9512019एफ अब जेसी-804895एच)	*06 जनवरी 2014
हवलदार	मुकेश कुमार यादव	(सेनांक 9512020डब्ल्यू अब जेसी-804896एल)	01 जनवरी 2014
हवलदार	उपेन्द्र कुमार अवस्थी	(सेनांक 9512022एफ अब जेसी-804897एन)	*09 जनवरी 2014
हवलदार	संजीव सिंह	(सेनांक 9512025पी अब जेसी-804898डब्ल्यू)	01 जनवरी 2014
* नायब सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014से दी जाएगी।			
हवलदार	नरेश चन्द	(सेनांक 9512026एक्स अब जेसी-804899वाई)	01 फरवरी 2014
हवलदार	हरिओम	(सेनांक 9512027ए अब जेसी-804900एच)	01 फरवरी 2014

हवलदार	एस के पटनायक	(सेनांक 9512028एच अब जेसी—804901एल)	01 फरवरी 2014
हवलदार	सुरेन्द्र सिंह	(सेनांक 9512031एच अब जेसी—804903डब्ल्यू)	01 फरवरी 2014
हवलदार	ओवेन्द्र कुमार	(सेनांक 9512033एन अब जेसी—804904वाई)	01 फरवरी 2014
हवलदार	आर्दश कुमार सक्सेना	(सेनांक 9512043एक्स अब जेसी—804905एफ)	01 फरवरी 2014
हवलदार	श्यामवीर सिंह	(सेनांक 9512046एल अब जेसी—804906के)	01 फरवरी 2014
हवलदार	रामकृष्णन ए	(सेनांक 9512051डब्ल्यू अब जेसी—804907एम)	01 फरवरी 2014
हवलदार	चन्द्रकान्त सक्सेना	(सेनांक 9512052वाई अब जेसी—804908पी)	01 फरवरी 2014
हवलदार	मंगुली चरण सामल	(सेनांक 9512054के अब जेसी—804909एक्स)	01 फरवरी 2014

हवलदार	संजीव सिंह	(सेनांक 9511725डब्ल्यू अब जेसी—804764एक्स)	01 मई 2013
हवलदार	सुभाष चन्द	(सेनांक 9511733पी अब जेसी—804767एल)	01 मई 2013
हवलदार	उमेश कुमार सिंह	(सेनांक 9511737एल अब जेसी—804769डब्ल्यू)	01 मई 2013
हवलदार	पाटील सुरेश शिवगोंडा	(सेनांक 9511743वाई अब जेसी—804771एन)	01 मई 2013
हवलदार	महाराज सिंह	(सेनांक 9511744एफ अब जेसी—804772डब्ल्यू)	01 मई 2013
हवलदार	किशोर कुमार शर्मा	(सेनांक 9511756डब्ल्यू अब जेसी—804778एक्स)	01 जून 2013
हवलदार	श्रीकुमार एम	(सेनांक 9511758एफ अब जेसी—804779ए)	01 जून 2013
हवलदार	रूप सिंह	(सेनांक 9511759के अब जेसी—804780पी)	01 जून 2013
हवलदार	चंचल सिंह	(सेनांक 9511760वाई अब जेसी—804781एक्स)	01 जून 2013
हवलदार	विजय कुमार ए सी	(सेनांक 9511763एम अब जेसी—804782ए)	@27 जून 2013
हवलदार	सलीम अहमद पी पी	(सेनांक 9511765एक्स अब जेसी—804783एच)	01 जून 2013
हवलदार	सुनील कुमार	(सेनांक 9511769एन अब जेसी—804793एम)	#01 अगस्त 2013

#नायब सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जून 2013 से दी जाएगी।

हवलदार	नरेन्द्र सिंह	(सेनांक 9511771एल अब जेसी—804784एल)	01 जून 2013
हवलदार	अशोक कुमार सिंह	(सेनांक 9511776के अब जेसी—804785एन)	01 जून 2013
हवलदार	श्री किशोर कुमार साहू	(सेनांक 9511777एम अब जेसी—804786डब्ल्यू)	01 जून 2013
हवलदार	रघुबीर सिंह	(सेनांक 9511780एम अब जेसी—804787वाई)	01 जून 2013
हवलदार	प्रमोद क्षेत्री	(सेनांक 9511781पी अब जेसी—804788एफ)	01 जून 2013
हवलदार	विश्वनाथ सिंह	(सेनांक 9511783ए अब जेसी—804789के)	@03 जून 2013
हवलदार	अशोक कुमार	(सेनांक 9511785एल अब जेसी—804790वाई)	01 जून 2013
हवलदार	राम ओट पाण्डेय	(सेनांक 9511787डब्ल्यू अब जेसी—804791एफ)	01 जून 2013
हवलदार	सुरंजन नियोगी	(सेनांक 9511788वाई अब जेसी—804792के)	01 जून 2013

@नायब सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जाएगी।

हवलदार	विनोद कुमार	(सेनांक 9511792एफ अब जेसी—804794पी)	01 जुलाई 2013
--------	-------------	-------------------------------------	---------------

हवलदार	ओम प्रकाश पाण्डेय	(सेनांक 9511793के अब जेसी-804795एक्स)	01 जुलाई 2013
हवलदार	पाठक श्रीराम दत्तात्रय	(सेनांक 9511794एम अब जेसी-804796ए)	01 जुलाई 2013
हवलदार	देवेन्द्र सिंह	(सेनांक 9511797ए अब जेसी-804797एच)	01 जुलाई 2013
हवलदार	जगत सिंह	(सेनांक 9511798एच अब जेसी-804798एल)	*15 जुलाई 2013
हवलदार	जीवन लाल	(सेनांक 9511800पी अब जेसी-804799एन)	01 जुलाई 2013
हवलदार	सौरीन्द्र नन्दा	(सेनांक 9511803एच अब जेसी-804800एक्स)	01 जुलाई 2013
हवलदार	राजीव कुमार सिंह	(सेनांक 9511804एल अब जेसी-804801ए)	01 जुलाई 2013

हवलदार	राजबीर सिंह	(सेनांक 9511805एन अब जेसी-804803एल)	01 जुलाई 2013
हवलदार	परीट बालासो लक्ष्मण	(सेनांक 9511806डब्ल्यू अब जेसी-804802एच)	01 जुलाई 2013
हवलदार	के पॉल राज	(सेनांक 9511811एफ अब जेसी-804804एन)	01 जुलाई 2013
हवलदार	कुमार टी	(सेनांक 9511812के अब जेसी-804805डब्ल्यू)	01 जुलाई 2013
*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जाएगी।			
हवलदार	बिजय कुमार मोहन्ती	(सेनांक 9511815एक्स अब जेसी-804806वाई)	01 अगस्त 2013
हवलदार	गणेश साहू	(सेनांक 9511816ए अब जेसी-804807एफ)	01 अगस्त 2013
हवलदार	विरेन्द्र सिंह	(सेनांक 9511817एच अब जेसी-804808के)	01 अगस्त 2013
हवलदार	कमल कुमार शतपथी	(सेनांक 9511818एल अब जेसी-804809एम)	01 अगस्त 2013
हवलदार	हरीश कुमार कटुनगोलथ	(सेनांक 9511819एन अब जेसी-804810एफ)	01 अगस्त 2013
हवलदार	अनिल कुमार एस	(सेनांक 9511821एल अब जेसी-804811के)	01 अगस्त 2013
हवलदार	सुरेश कुमार केके	(सेनांक 9511827एम अब जेसी-804812एम)	01 अगस्त 2013
हवलदार	प्रसन्न कुमार बेहेरा	(सेनांक 9511833ए अब जेसी-804813पी)	01 अगस्त 2013
हवलदार	सुशान्त कुमार मिश्र	(सेनांक 9511834एच अब जेसी-804814एक्स)	01 अगस्त 2013
हवलदार	सुरेंद्र कुमार	(सेनांक 9511836एन अब जेसी-804815ए)	01 अगस्त 2013
हवलदार	गोबिन्द चन्द्र साहू	(सेनांक 9511837डब्ल्यू अब जेसी-804816एच)	01 अगस्त 2013
हवलदार	श्री संजीव कश्यप	(सेनांक 9511839एफ अब जेसी-804817एल)	01 अगस्त 2013
हवलदार	बीर बहादुर हिंगमांग	(सेनांक 9511840डब्ल्यू अब जेसी-804818एन)	@02 सितम्बर 2013
हवलदार	शीलेन्द्र कुमार	(सेनांक 9511842एफ अब जेसी-804820एल)	01 सितम्बर 2013
हवलदार	दिनेश कुमार	(सेनांक 9511844एम अब जेसी-804821एन)	01 सितम्बर 2013
हवलदार	जय प्रकाश	(सेनांक 9511845पी अब जेसी-804822डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2013
हवलदार	महेन्द्र सिंह	(सेनांक 9511849एल अब जेसी-804824एफ)	@02 सितम्बर 2013
@नायब सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जाएगी।			

वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय

सं. 120, दिनांक 2 मई 2014—भारत के राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

1. ओ.ए.क्यू.ए., देहरादून के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी श्री संजय कुमार अग्रवाल को 25 अक्टूबर, 2013 (पूर्वाह्न) से ओ.आर.डी.ए.क्यू.ए., कोरवा में निदेशक के रूप में ।
2. ओ.आर.डी.ए.क्यू.ए., बेंगलुरु के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी श्री एस इपतेखार अहमद को 31 दिसम्बर, 2013 (पूर्वाह्न) से ओ.आर.डी.ए.क्यू.ए.(ए.ए.) किरकी, पुणे में निदेशक के रूप में ।
3. एस.एस.क्यू.ए.जी., हैदराबाद के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी श्री ए. के. स्टीले को 15 अक्टूबर, 2013 (पूर्वाह्न) से एस.एस.क्यू.ए.जी., हैदराबाद में निदेशक के रूप में ।
4. ओ.आर.डी.ए.क्यू.ए.(ए.ए.) किरकी, पुणे के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी श्री आर के सिन्हा को 15 नवम्बर, 2013 (पूर्वाह्न) से उप महानिदेशक (कोरापुट) कार्यालय में निदेशक के रूप में ।
5. एस.एस.क्यू.ए.जी., हैदराबाद के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी श्री एम.जे. विनोद कुमार को 15 अक्टूबर, 2013 (पूर्वाह्न) से एम.एस.क्यू.ए.ए., हैदराबाद में निदेशक के रूप में ।
6. उप महानिदेशक (नासिक) कार्यालय के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी श्री राजेन्द्रन गणेशन को 18 अक्टूबर, 2013 (पूर्वाह्न) से ओ.आर.डी.ए.क्यू.ए.(एच.ए.एल.), हैदराबाद में निदेशक के रूप में ।
7. वै.गु.आ.महानिदेशालय, नई दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी श्री अजय सगराया को 12 नवम्बर, 2013 (पूर्वाह्न) से ओ.आर.डी.ए.क्यू.ए., बेंगलुरु में निदेशक के रूप में ।
8. ओ.आर.डी.ए.क्यू.ए.(जी.डब्ल्यू), हैदराबाद के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी श्री डी.बी. भंगाले को 04 नवम्बर, 2013 (पूर्वाह्न) से उप महानिदेशक (कोरापुट) कार्यालय में निदेशक के रूप में ।
9. ए.एल.आई.एस.डी.ए., बेंगलुरु के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी श्री जी पारी को 13 नवम्बर, 2013 (पूर्वाह्न) से उप महानिदेशक (नासिक) कार्यालय में निदेशक के रूप में ।
10. ओ.आर.डी.ए.क्यू.ए., बेंगलुरु के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी श्री एम. नटेश को 15 अक्टूबर, 2013 (पूर्वाह्न) से ओ.आर.डी.ए.क्यू.ए., बेंगलुरु में निदेशक के रूप में ।
11. वै.गु.आ.महानिदेशालय, नई दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी श्री ए. के. पराशर को 17 अक्टूबर, 2013 (पूर्वाह्न) से वै.गु.आ. महानिदेशालय, नई दिल्ली में निदेशक के रूप में ।

इंदरजीत सेठी
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 121, दिनांक 5 मई 2014—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को सेवानिवृत्त होने पर अपना रैंक बनाये रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

सेवानिवृत्त

कर्नल(टी एस)सतवन्त सिंह पाबला	टीए-41904	(इन्जीनियर टीए)	31 दिसम्बर 2013 (अप0)
लै0 कर्नल के ए एन माथुर	टीए-42170	(इन्जीनियर टीए)	31 अगस्त 2013 (अप0)

ऋतु शर्मा
अवर सचिव

सं. 122, दिनांक 6 मई 2014—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को प्रादेशिक सेना से बर्खास्त करने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

बर्खास्त किया जाता है

कैप्टन संजय कुमार चौवे	टीए-42395	(इन्जीनियर टीए)	06 नवम्बर 2006 (अप0)
------------------------	-----------	-----------------	----------------------

ऋतु शर्मा
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 7th June 2014

D (MS) SECTION

No. 113, dated 23rd April 2014--The President has made the following appointment on his Honorary Personal Staff w.e.f. 01 May 2014:--

HONORARY ARMY ADC

INFANTRY

IC-30389N Lt Gen Sanjiv Chachra, PVSM, AVSM, VSM

Vice

IC-30089M Lt Gen Narendra Singh, PVSM, AVSM, SM, VSM (Retired)

REVATI RAMAN
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 114, dated 24th April 2014--The President is pleased to make the following appointment :-

TERRITORIAL ARMY

To be Lieutenant

Kuldeep Singh	TA-42892	(Engr TA)	17 Sep 2013
Parmod Kumar	TA-42893	(Engr TA)	17 Sep 2013
Rahul Sudhanshu	TA-42895	(Engr TA)	05 Nov 2013
Gaurav Agrawal	TA-42897	(Engr TA)	11 Nov 2013
Rajesh Gupta	TA-42898	(Engr TA)	14 Nov 2013
Rakesh Kumar	TA-42899	(Engr TA)	30 Oct 2013

The President is pleased to make the following appointment :--

TERRITORIAL ARMY

ANTE DATE SENIORITY

SS-37615H Ex Lt Col now TA-42875 Lieutenant Karanbir Singh Natt has been granted commission as an officer in the Territorial Army (Infantry) on 10 May 2013 in the rank of Lieutenant under the provision given in Appendix VIII of TA Act 1948. He is also granted 14 years and 87 days (05.09.1998 to 30.11.2012) ante date seniority with effect from 13 Feb 1999 in the rank of Lieutenant for his former service in the Regular Army. By virtue of his ante date seniority, he is promoted as Major with effect from 10 May 2013 and Lt Col wef 13 Feb 2014. Also the officer is promoted with notional seniority for pay and promotion in the rank of Captain with effect from 16 Dec 2004 and Maj wef 13 Feb 2007 under the provisions of Para 25 (a) & 38 (a) of TA Act 1948 (Revised Edition 1976) as amended vide Government of India, Ministry of Defence letter No 18(1)2006/D(GS-1) dated 18 Apr 06 consequent to recommendations of AVSC Committee report for increments of pay and promotion purpose.

SS-38144 Ex Lt now TA-42848P Lieutenant Parminder Singh Sohal has been granted commission as an officer in the Territorial Army (Infantry) on 10 May 2012 in the rank of Lieutenant under the provision given in Appendix VIII of TA Act 1948. He is also granted 05 years (04.09.1999 to 03.09.2004) ante date seniority with effect from 10 May 2007 in the rank of Lieutenant for his former service in the Regular Army. By virtue of his ante date seniority, he is promoted as Captain with effect from 10 May 2012. Also the officer is promoted with notional seniority for pay and promotion in the rank of Captain with effect from 10 May 2011 under the provisions of Para 25 (a) & 38 (a) of TA Act 1948 (Revised Edition 1976) as amended vide Government of India, Ministry of Defence Letter No 18(1)2006/D(GS-1) dated 18 Apr 06 consequent to recommendations of AVSC Committee report for increments of pay and promotion purpose.

RITU SHARMA
Under Secretary

NAVY BRANCH

No. 115, dated 25th April 2014--The President is pleased to make the following appointment in the Executive Branch General Service, Hydro Cadre, Atc, Observer, Logistic Cadre, Nai Cadre, Law Cadre, Education Branch, Engineering Branch (General Service), Electrical Branch (General Service) and Engineering Branch (Submarine) in Jan 2011 course of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence Letter No. MF/1822/DES/Vol-IV/03 dated 13 Jan 2014 & MF/1506/DES/Vol-I/03 dated 15 Jan 2014 from the date shown against the name :--

To be Sub Lt (on probation)

Sl. No.	Name of the officers	P. No.	Type of Commission	Date of Commission
DIRECT ENTRY SCHEME				
EXECUTIVE BRANCH (GENERAL SERVICE) (SSC) : JAN 11 COURSE				
(i)	Kiran R	06888-B	SSC	03 Jan 2011
(ii)	Martin Benedict Ziad V	06889-F	SSC	03 Jan 2011
(iii)	Binu R D Panicker	06890-H	SSC	03 Jan 2011
(iv)	Saikat Mondal	06891-K	SSC	03 Jan 2011
(v)	Gaurav Puri	06892-N	SSC	03 Jan 2011
(vi)	Debdutta Hansda	06893-R	SSC	03 Jan 2011
(vii)	Puneet Katewa	06894-T	SSC	03 Jan 2011
(viii)	Visakh A M	06895-W	SSC	03 Jan 2011
(ix)	Venkatesh K R	06897-Z	SSC	03 Jan 2011
EXECUTIVE BRANCH (HYDRO CADRE) (SSC) - JAN 11 COURSE				
(i)	Chittaranjan Kumar Singh	06898-A	SSC	03 Jan 2011
EXECUTIVE BRANCH (ATC) (SSC) - JAN 11 COURSE				
(i)	Deepti Dwivedi	06881-N	SSC	03 Jan 2011
(ii)	Jareena Begum	06883-T	SSC	03 Jan 2011
(iii)	Akhil S L	06884-W	SSC	03 Jan 2011
(iv)	Divya Jyoti Srivastava	06885-Y	SSC	03 Jan 2011
(v)	Rajneesh Bhati	06886-Z	SSC	18 Jan 2011
(vi)	G Rajkumar	06887-A	SSC	20 Jan 2011
EXECUTIVE BRANCH (OBSERVER) (SSC) - JAN 11 COURSE				
(i)	Prasad Rajendra Deshpande	06912-H	SSC	03 Jan 2011
EXECUTIVE BRANCH (LOGISTIC CADRE) (PC) - JAN 11 COURSE				
(i)	Arjun Kapoor	06899-B	PC	03 Jan 2011
(ii)	Anand Kumar Jha	06900-F	PC	03 Jan 2011
(iii)	Himanshu Gautam	06901-H	PC	03 Jan 2011
(iv)	Hari E.	06902-K	PC	03 Jan 2011
(v)	Ankit Acharya	06904-R	PC	03 Jan 2011
(vi)	Satyam Dubey	06905-T	PC	03 Jan 2011
(vii)	Nishant Rana	06906-W	PC	03 Jan 2011

Sl. No.	Name of the officers	P. No.	Type of Commission	Date of Commission
(viii)	Abhimanyu	06907-Y	PC	03 Jan 2011
(ix)	Anshu Rajpal	06908-Z	PC	03 Jan 2011
(x)	Mayank Sandhir	06909-A	PC	15 Jan 2011
(xi)	Uttam Punia	06910-B	PC	18 Jan 2011
EXECUTIVE BRANCH (NAI CADRE) (PC) - JAN 11 COURSE				
(i)	Varun J Chandran	06913-K	PC	03 Jan 2011
(ii)	Amit Kumar Singh	06914-N	PC	03 Jan 2011
(iii)	Shravan S	06915-R	PC	03 Jan 2011
(iv)	Sankar Sarat	06916-T	PC	03 Jan 2011
(v)	Sukant Dwivedi	06918-Y	PC	03 Jan 2011
(vi)	Senthil S	06919-Z	PC	03 Jan 2011
(vii)	Himanshu Chauhan	06920-A	PC	04 Jan 2011
(viii)	VSSH Saran Punyamurthula	06922-F	PC	06 Jan 2011
(ix)	Arun R	06926-R	PC	18 Jan 2011
EXECUTIVE BRANCH (LAW CADRE) (PC) - JAN 11 COURSE				
(i)	Rajat Gupta	06873-W	PC	03 Jan 2011
(ii)	Aditya Deep Singh	06874-Y	PC	03 Jan 2011
(iii)	Rahul Ahlawat	06875-Z	PC	03 Jan 2011
(iv)	Vikas Chahar	06876-A	PC	03 Jan 2011
(v)	Nilaksh Sharma	06877-B	PC	03 Jan 2011
(vi)	Siddharth Sharma	06878-F	PC	03 Jan 2011
(vii)	Abhimanyu Singh	06879-H	PC	03 Jan 2011
(viii)	Gul Nawaz Naqvi	06880-K	PC	03 Jan 2011
EXECUTIVE BRANCH (LAW CADRE) (SSC) - JAN 11 COURSE				
(i)	Avinash Sabarad	06867-F	SSC	03 Jan 2011
(ii)	Bhriugu Gera	06868-H	SSC	03 Jan 2011
(iii)	Ajay Pal Singh	06869-K	SSC	03 Jan 2011
(iv)	Shrihari Patil	06870-N	SSC	03 Jan 2011
(v)	Amandeep Singh Toor	06871-R	SSC	03 Jan 2011
(vi)	Vijaykumar Patil	06872-T	SSC	10 Jan 2011
EDUCATION BRANCH (SSC) – JAN 11 COURSE				
(i)	Anvith Medappa K M	70636-K	SSC	03 Jan 2011
(ii)	Priyanka Priyadarshini	70638-R	SSC	03 Jan 2011
(iii)	Inderjit Yadav	70639-T	SSC	03 Jan 2011
(iv)	K Firoza Devi	70640-W	SSC	03 Jan 2011
(v)	Rana Pranit Himanshu	70642-Z	SSC	03 Jan 2011

Sl. No.	Name of the officers	P. No.	Type of Commission	Date of Commission
(vi)	Vivekanandan M	70643-A	SSC	03 Jan 2011
(vii)	Sudheesh T.M.	70644-B	SSC	03 Jan 2011
(viii)	Shishir Nair	70645-F	SSC	03 Jan 2011
(ix)	Malathi D	70646-H	SSC	18 Jan 2011
(x)	Anoushka Dumka	70648-N	SSC	18 Jan 2011
ENGINEERING BRANCH (GENERAL SERVICE) : JAN 11 COURSE				
(i)	Harsh Vardhan Rawat	43119-Y	SSC	03 Jan 2011
(ii)	Abhimanyu Sharma	43120-Z	SSC	03 Jan 2011
(iii)	Preet Kanwar Singh	43121-A	SSC	03 Jan 2011
(iv)	Sushil Yadav	43122-B	SSC	03 Jan 2011
(v)	Vivek. R	43123-F	SSC	03 Jan 2011
(vi)	Kapilan A	43124-H	SSC	03 Jan 2011
(vii)	Savtanter Saini	43125-K	SSC	03 Jan 2011
ELECTRICAL BRANCH (GENERAL SERVICE) : JAN 11 COURSE				
(i)	E Navin Mars	52659-B	SSC	03 Jan 2011
(ii)	Lijumon Yohannan	52660-F	SSC	03 Jan 2011
(iii)	Nikhil Kumar Dhulia	52661-H	SSC	03 Jan 2011
(iv)	Harsh Verma	52662-K	SSC	03 Jan 2011
(v)	George Joseph	52663-N	SSC	03 Jan 2011
(vi)	Krishna Kumar R Jhala	52664-R	SSC	03 Jan 2011
(vii)	P Krishit	52665-T	SSC	17 Jan 2011
ENGINEERING BRANCH (SUBMARINE) : JAN 11 COURSE				
(i)	Gaikwad Moreshwar Subhash	43127-R	SSC	03 Jan 2011

AJAY SHARMA
Captain
DMPR (OI & R)

ARMY BRANCH

No. 116, dated 28th April 2014--The President is pleased to make the following promotion under AI 37/78 as amended. :-

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
PERMANENT COMMISSION
Lt Col to be Col (TS) (& equivalent)

Sr No	Pers No	Rank	Name	Dt of promotion
(a)	DR-10423F	Lt Col	PK Pal	16-05-2013
(b)	DR-10383L	Lt Col	Prakash Halder	06-08-2013

The President is pleased to make the following promotion (PC) under AI 37/78 as amended. :--

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
PERMANENT COMMISSION
Surg Lt Cdr to be Surg Cdr (& Equiv)

Sr No	Pers No	Rank	Name	Dt of Promotion
(a)	DR-10541P (79065T)	Surg Lt Cdr	A Chakranarayan	10-05-2013

Maj to be Lt Col (& Equiv)

Sr No	Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
(a)	DR-10580N	Major	Desai Ajay Permanand	30-05-2013
(b)	DR-10582Y	Major	Shah Rakesh Jaykrishna	13-08-2013
(c)	DR-10573X	Major	Karan Nehra	25-08-2013
(d)	DR-10575H	Major	Naveen Nandal	25-08-2013
(e)	DR-10583F	Major	Gaurav Vohra	09-09-2013
(f)	DR-10576L	Major	ASG Sannagowdar	11-09-2013
(g)	DR-10584K	Major	Vishal Gupta	12-09-2013
(h)	DR-10617K	Major	(Ms) Guramrit Sandhu	14-09-2013
(j)	DR-10539X	Major	Rohit Sharma	27-09-2013

SHORT SERVICE COMMISSION

Maj to be Lt Col (& Equiv)

Sr No	Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
(a)	DS-12072W	Major	(Ms) Chirasree Chakrabarty	28-07-2013
(b)	DS-12045M	Major	(Ms) Susmita Panda	22-08-2013
(c)	DS-12050X	Major	(Ms) Sheetal Lal	01-09-2013
(d)	DS-12055W	Major	(Ms) Swati Chauhan	10-09-2013
(e)	DS-12079A	Major	(Ms) Mona Bhatia	01-10-2013
(f)	DS-12066H	Major	(Ms) Shveta Pathak	21-10-2013
(g)	DS-12081L	Major	Arun Tanwar	02-11-2013

The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79 as amended :--

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
SHORT SERVICE COMMISSION
Capt to be Major

Sr No	Personal No	Rank	Name	Dt of Promotion to the rank of Maj
(a)	DS-12319M	Capt	Tembhare Rajnikant Ishwar	05-07-13
(b)	DS-12320F	Capt	Bellubbi Pavan Kumar	05-07-13
(c)	DS-12323P	Capt	Ravinder Pal Singh Rana	05-07-13
(d)	DS-12325A	Capt	Saurav Jagnani	08-07-13

Sr No	Personal No	Rank	Name	Dt of Promotion to the rank of Maj
(e)	DS-12328N	Capt	Kamender Kumar Singh	12-07-13
(f)	DS-12329W	Capt	Shashi Kant Sharma	12-07-13
(g)	DS-12330L	Capt	Manish Gupta	14-07-13
(h)	DS-12331N	Capt	Pramod K Chahar	15-07-13
(j)	DS-12333Y	Capt	Gautam Kapoor	16-07-13
(k)	DS-12335K	Capt	Vivek Kumar Singh	17-07-13
(l)	DS-12336M	Capt	Rajesh Kumar Sah	19-07-13
(m)	DS-12337P	Capt	Deepankur Popli	19-07-13
(n)	DS-12338X	Capt	Abhishek Mishra	19-07-13
(o)	DS-12340P	Capt	Waingankar Akshay Madhuker	20-07-13
(p)	DS-12341X	Capt	Arul K	20-07-13
(q)	DS-12346W	Capt	Abhishek Rai	17-08-13
(r)	DS-12358L	Capt	Munish Kumar	22-08-13
(s)	DS-12360H	Capt	Tanuj Mendiratta	24-08-13
(t)	DS-12362N	Capt	Vinay Singh Parihar	26-08-13
(u)	DS-12347Y	Capt	Satnam Singh	06-09-13
(v)	DS-12348F	Capt	Anupam Gupta	13-09-13
(w)	DS-12349K	Capt	Varun Nischal	15-09-13
(x)	DS-12350Y	Capt	Amitoj Singh	18-09-13
(y)	DS-12351F	Capt	Rohit Thakur	20-09-13

The President is pleased to make the following promotion (PC) under AI 37/78 as amended :--

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
PERMANENT COMMISSION
Capt to be Major (& Equiv)

Sr No	Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
(a)	DR-10676W	Capt	T Balasundaram	22-07-2013
(b)	DR-10629Y	Capt	Rohan Bhoil	04-08-2013

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

ARMY BRANCH

No. 117, dated 29th April 2014--The President is pleased to make the following promotion :--

TERRITORIAL ARMY
TERRITORIAL COMMISSION

To be Maj

Capt Anil Balhera

TA-42606

(Infantry)

03 Jun 2013

Capt	Kirtikumar N Dave	TA-42653	(Infantry)	13 Oct 2013
Capt	Kumar Sharma	TA-42659	(Infantry)	15 Jan 2014

To be Capt

Lt Jitendra Singh	TA-42713	(Engineer TA)	24 Apr 2012
Lt SN Karajagi	TA-42714	(Engineer TA)	30 Jun 2012
Lt GC Rajashekar	TA-42734	(Engineer TA)	26 May 2013
Lt Kuldeep Singh Gusain	TA-42775	(Engineer TA)	07 Dec 2013
Lt Aijaz Ahmad Dar	TA-42761	(Infantry)	05 Jan 2014

RITU SHARMA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 118, dated 30th April 2014--The President is pleased to make the following promotions :--

REGULAR ARMY

INFANTRY

BRIGADE OF THE GUARDS

To be Subedar Major

Sub	Rajvir Singh	JC-403357A	06 Feb 2014*
-----	--------------	------------	--------------

*Gtd seniority in the rank of Subedar Major without effect on pay and allces wef 01 Feb 2014.

Sub	Sohan Lal	JC-403827P	01 Mar 2014
-----	-----------	------------	-------------

Sub	Braj Kishor	JC-403661Y	08 Mar 2014*
-----	-------------	------------	--------------

*Gtd seniority in the rank of Subedar Major without effect on pay and allces wef 01 Mar 2014.

To be Subedar

Nb Sub	Santosh Kumar N	JC-404360F	01 Jan 2014
--------	-----------------	------------	-------------

Nb Sub	Tribhawan Singh	JC-404555F	01 Jan 2014
--------	-----------------	------------	-------------

Nb Sub	Shravan Kumar Dubey	JC-404285H	01 Jan 2014
--------	---------------------	------------	-------------

Nb Sub	Mahendra Kumar Mishra	JC-404287N	01 Feb 2014
--------	-----------------------	------------	-------------

Nb Sub	Bakshi Singh	JC-404489P	01 Jan 2014
--------	--------------	------------	-------------

Nb Sub	Mohan Phukon	JC-404490K	09 Jan 2014*
--------	--------------	------------	--------------

*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Jan 2014.

Nb Sub	Balwan Singh	JC-404718P	01 Feb 2014*
--------	--------------	------------	--------------

*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Dec 2013.

Nb Sub	Alhad Rajaram Gondane	JC-404760N	13 Jan 2014*
--------	-----------------------	------------	--------------

*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Dec 2013.

Nb Sub	Kailash Nath Tripathi	JC-404746F	01 Jan 2014
--------	-----------------------	------------	-------------

Nb Sub	Binod Kumar Choudhary	JC-404739L	05 Jan 2014*
--------	-----------------------	------------	--------------

*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Jan 2014.

Nb Sub	Hakikat Rai	JC-404633Y	01 Feb 2014
--------	-------------	------------	-------------

Nb Sub	Soran Chand	JC-404551L	13 Jan 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Jan 2014.			
Nb Sub	Joginder Singh	JC-404468Y	11 Jan 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Jan 2014.			
Nb Sub	Brahm Singh Gurjar	JC-404504Y	01 Feb 2014
Nb Sub	Vinod VV	JC-404361K	18 Jan 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 06 Jan 2014.			
Nb Sub	Bal Kishan	JC-404561A	01 Feb 2014
Nb Sub	Mahipal Singh	JC-404709P	01 Feb 2014
Nb Sub	Peerikatla Chandri Naidu	JC-404362M	01 Feb 2014
Nb Sub	Rakesh Singh	JC-404445X	12 Feb 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Feb 2014.			
Nb Sub	Shiv Karan Singh	JC-404502N	20 Feb 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Feb 2014.			
Nb Sub	B Subramanian	JC-404503W	12 Feb 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Feb 2014.			
Nb Sub	Rajesh Kumar	JC-404595N	13 Feb 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Feb 2014.			
Nb Sub	Subhash Chander	JC-404607X	01 Feb 2014
Nb Sub	Ali Ahmad	JC-404559H	08 Feb 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 03 Feb 2014.			
Nb Sub	Shailesh Kumar Thakur	JC-403960X	11 Feb 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Feb 2014.			
Nb Sub	Bhanwar Lal Meena	JC-404592A	01 Mar 2014
Nb Sub	Madan Lal	JC-404191L	03 Mar 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Mar 2014.			
Nb Sub	Mahesh Singh Kushwah	JC-404271H	03 Mar 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Mar 2014.			
Nb Sub	Lakhan Lal Gurjar	JC-404274W	03 Mar 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Mar 2014.			
Nb Sub	Khushi Ram	JC-404275Y	03 Mar 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Mar 2014.			
Nb Sub	Arvind Kumar	JC-404556P	01 Mar 2014
Nb Sub	Mani Ram Chettri	JC-404526X	14 Mar 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Mar 2014.			
Nb Sub	Tirlok Singh	JC-404551W	20 Mar 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Mar 2014.			

To be Subedar (SKT)

Nb Sub (SKT)	Rathesh Kumar N	JC-404163Y	01 Jan 2014
--------------	-----------------	------------	-------------

To be Subedar (Clerk SD)

Nb Sub (ClkSD)	Harphool Ram	JC-404510M	01 Jan 2014
Nb Sub (ClkSD)	Rajpal Singh Yadav	JC-404531H	01 Jan 2014
Nb Sub (ClkSD)	Shaji P	JC-404532L	01 Feb 2014
Nb Sub (ClkSD)	Gurivelli Vainkuta Rao	JC-404557X	06 Mar 2014*

*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Mar 2014.

Nb Sub (ClkSD)	N Venkata Rao	JC-404572M	01 Mar 2014
Nb Sub (ClkSD)	Mohammed Aslam Khan	JC-404577L	01 Mar 2014
Nb Sub (ClkSD)	Pardeep Kumar	JC-404583Y	01 Mar 2014
Nb Sub (ClkSD)	Braj Kishor Ojha	JC-404597Y	01 Mar 2014

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Substantive Subedar Major (Clerk (SD))

SUB (CLK (SD))	PAWAR MARUTI SRIPATI	(JC-420689P)	01 JAN 2014
----------------	----------------------	--------------	-------------

To be Substantive Subedar (Clerk (SD))

NB SUB (CLK (SD))	P JAMES	(JC-421994N)	01 JAN 2014
NB SUB (CLK (SD))	LAL SINGH YADAV	(JC-422195K)	01 JAN 2014
NB SUB (CLK (SD))	SANJAY KUMAR	(JC-421995W)	01 JAN 2014
NB SUB (CLK (SD))	KV RAMI REDDY	(JC-422018K)	01 FEB 2014
NB SUB (CLK (SD))	MANKU SREENIVASULU	(JC-422019M)	01 FEB 2014
NB SUB (CLK (SD))	PRAFULA KUMAR SAHOO	(JC-422055X)	01 MAR 2014
NB SUB (CLK (SD))	VAGHELA SUR SINH BHUPAT SINH	(JC-422103M)	08 MAR 2014*

* (Granted seniority in the rank of substantive Subedar Clerk (SD) wef 01st Mar 2014 without effect on pay and allowances)

NB SUB (CLK (SD))	SANJAI KUMAR SINGH	(JC-422105X)	01 MAR 2014
NB SUB (CLK (SD))	HARI SINGH	(JC-422139L)	01 MAR 2014
NB SUB (CLK (SD))	A VINCENT	(JC-422140A)	01 MAR 2014

To be Naib Subedar (Clerk (SD))

HAV (CLK (SD))	KAUSHAL KUMAR	(14918120N Now JC-422549F)	01 JAN 2014
HAV (CLK (SD))	SHAIK CHINA IMAMSA	(14920973K Now JC-422550W)	01 JAN 2014
HAV (CLK (SD))	SULAKHAN KUMAR	(14921036Y Now JC-422551Y)	01 JAN 2014
HAV (CLK (SD))	SRIHARI HS	(14921048N Now JC-422552F)	01 FEB 2014
HAV (CLK (SD))	GIRISH KUMAR PATHI	(14921183F Now JC-422553K)	01 FEB 2014
HAV (CLK (SD))	RANVIR SINGH	(14922212X Now JC-422555P)	01 MAR 2014
HAV (CLK (SD))	SUBHASH CHANDRA MANNA	(14922820Y Now JC-422556X)	01 MAR 2014
HAV (CLK (SD))	M PRABHUVEL	(14920844K Now JC-422557A)	01 MAR 2014
HAV (CLK (SD))	SUNIL KUMAR	(14920730Y Now JC-422558H)	01 MAR 2014
HAV (CLK (SD))	FATEH RAM	(14921267P Now JC-422559L)	01 MAR 2014

To be Substantive Subedar Major (GD)		
SUB MANBIR SINGH	(JC-420962Y)	01 st Mar 2014
To be Substantive Subedar (GD)		
NB SUB RAJU KUMAR SINGH	(JC-421855K)	05 th Jul 2013*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 st Jun 2013 without effect on pay and allowances)		
NB SUB KULBIR SINGH	(JC-421740W)	07 th Jan 2014*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 st Nov 2013 without effect on pay and allowances)		
NB SUB P MURUGESAN	(JC-421540A)	01 st Jan 2014
NB SUB RAM RATTAN	(JC-421619H)	01 st Jan 2014
NB SUB VINOD KUMAR	(JC-421743K)	01 st Jan 2014
NB SUB KHIM SINGH SELAKOTI	(JC-421777X)	01 st Feb 2014
NB SUB AIYAPPA AB	(JC-421808M)	01 st Feb 2014
NB SUB RAMA KANT SINGH	(JC-421908X)	01 st Feb 2014
NB SUB ASHIM KUMAR SARKAR	(JC-422014N)	01 st Feb 2014
NB SUB MANOJ KUMAR SINGH	(JC-422015W)	01 st Feb 2014
NB SUB RAM AVTAR	(JC-422044L)	01 st Feb 2014
NB SUB JANARDAN SINGH	(JC-421579M)	18 th Feb 2014*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 15 th Feb 2014 without effect on pay and allowances)		
NB SUB S RADHA KRISHNAN	(JC-421643Y)	01 st Mar 2014
NB SUB SRI PAL	(JC-421685L)	01 st Mar 2014
NB SUB ARJUN KOLAMBKAR	(JC-421744M)	01 st Mar 2014
NB SUB RAMESH KUMAR BHOLYAN	(JC-421873M)	01 st Mar 2014
NB SUB CHANDRA BHAN	(JC-421887M)	01 st Mar 2014
NB SUB TILAK RAJ	(JC-421924P)	01 st Mar 2014
NB SUB ANAND SINGH	(JC-421927H)	01 st Mar 2014
NB SUB HARBANS LAL	(JC-421933W)	01 st Mar 2014
NB SUB RAMESH CHAND	(JC-421983F)	01 st Mar 2014
NB SUB SUDHAKARAN ME	(JC-421993L)	01 st Mar 2014
NB SUB PRADEEP KUMAR ACHARINDAVIDA	(JC-421998K)	01 st Mar 2014
NB SUB ANIL KUMAR	(JC-422057H)	01 st Mar 2014
NB SUB RAMESH CHANDRA SWAIN	(JC-422082F)	18 th Mar 2014*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 st Mar 2014 without effect on pay and allowances)		
NB SUB NANDA LAL GORAI	(JC-422083K)	01 st Mar 2014
NB SUB PARMJIT SINGH	(JC-422115F)	01 st Mar 2014
NB SUB RAM SEWAK MISTRY	(JC-422131Y)	03 rd Mar 2014*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 st Mar 2014 without effect on pay and allowances)		
NB SUB SUNIL SIWANI	(JC-422160N)	01 st Mar 2014
To be Naib Subedar (GD)		
HAV DHANANJAY SINGH AGHARIA	(14920560A Now JC-422560A)	05 th Dec 2013*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 st Oct 2013 without effect on pay and allowances)		
HAV KRISHNA AVTAR SINGH	(14921290H Now JC-422561H)	01 st Jan 2014*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 st Nov 2013 without effect on pay and allowances)		
HAV SYED MASTHAN	(14920483W Now JC-422562L)	23 rd Nov 2013*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 st Nov 2013 without effect on pay and allowances)		

HAV DINESH LAL	(14917728W Now JC-422563N)	02 nd Dec 2013*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 st Dec 2013 without effect on pay and allowances)		
HAV JAYA SIYA RAM	(14919279L Now JC-422564W)	01 st Jan 2014
HAV SHREE BHAGWAN MISHRA	(14920578W Now JC-422565Y)	26 th Jan 2014*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 st Jan 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV C GANESAN	(14920605P Now JC-422566F)	01 st Jan 2014
HAV YELUKOTI DS	(14920743W Now JC-422567K)	01 st Jan 2014
HAV GOWRI SHANKAR ASWADHATI	(14920866H Now JC-422568M)	01 st Jan 2014
HAV A JAYAPRAKASH	(14919584X Now JC-422569P)	24 th Feb 2014*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 26 th Jan 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV SATYAVIR	(14919185N Now JC-422570K)	06 th Feb 2014*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 st Feb 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV SANJAY KUMAR	(14918538W Now JC-422571M)	01 st Feb 2014
HAV BINOD SINGH	(14919148A Now JC-422572P)	01 st Feb 2014
HAV R ARULSAM Y	(14920863P Now JC-422573X)	01 st Feb 2014
HAV SUNIL KUMAR	(14920900X Now JC-422574A)	01 st Feb 2014
HAV SATTA RAM	(14922683L Now JC-422575H)	04 th Feb 2014*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 st Feb 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV DEVI DAYAL	(14920980A Now JC-422576L)	01 st Feb 2014
HAV BHARAT SINGH	(14919774K Now JC-422577N)	01 st Feb 2014
HAV G MARI MUTHU	(14919298W Now JC-422578W)	11 th Mar 2014*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 15 th Feb 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV ANIL KUMAR YADAV	(14917668M Now JC-422579Y)	01 st Mar 2014
HAV NANDALAL SINGH YADAV	(14918002A Now JC-422580N)	01 st Mar 2014
HAV PHOOL SINGH	(14917263F Now JC-422581W)	01 st Mar 2014
HAV JAMES S	(14918474W Now JC-422582Y)	11 th Mar 2014*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 st Mar 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV RADHE SHYAM KUMAR	(14917969W Now JC-422583F)	01 st Mar 2014
HAV RAVINDER KUMAR	(14919896N Now JC-422584K)	01 st Mar 2014
HAV CHHOTE LAL YADAV	(14918307A Now JC-422585M)	01 st Mar 2014
HAV VINESH KUMAR	(14920052K Now JC-422586P)	10 th Mar 2014*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 st Mar 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV VENKATA RAMANA VANDARANI	(14920608H Now JC-422587X)	10 th Mar 2014*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 st Mar 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV DEBARAJ MAHANTA	(14920929A Now JC-422588A)	01 st Mar 2014
HAV SURJEET KUMAR	(14921312W Now JC-422589H)	01 st Mar 2014
HAV PARVEEN SINGH	(14921313Y Now JC-422590X)	01 st Mar 2014
HAV SUNDAR SINGH	(14921355L Now JC-422591A)	01 st Mar 2014
HAV SANJAY KUMAR	(14921359F Now JC-422592H)	01 st Mar 2014
HAV SHAMSHER SINGH	(14922005L Now JC-422593L)	01 st Mar 2014
HAV SARAVANAN V	(14919080K Now JC-422594N)	01 st Mar 2014
HAV RAJENDER KUMAR	(14921722M Now JC-422595W)	01 st Mar 2014
HAV RUPA KATHAT	(2485054W Now JC-422596Y)	27 th Mar 2014*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 26 th Feb 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV BASANT LAL	(14917992K Now JC-422597F)	01 st Mar 2014
HAV SANGRAM SHEKHAR SUNDARAY	(14918110K Now JC-422598K)	01 st Mar 2014
HAV BIDYUT BERA	(14920596Y Now JC-422599M)	01 st Mar 2014

HAV BAIJU MON ANTONY	(14921138P Now JC-422600W)	01 st Mar 2014
HAV RANJIT SINGH RAWAT	(14918370P Now JC-422601Y)	01 st Apr 2014
HAV GANGARAM	(14919709K Now JC-422602F)	01 st Apr 2014
HAV K PALANISAMY	(14921585Y Now JC-422603K)	01 st Apr 2014
HAV WAGH VISHNU BHUJHNGRAO	(14919786Y Now JC-422604M)	01 st Apr 2014
HAV DAMBER SINGH MANGER	(14919140N Now JC-422605P)	01 st Apr 2014
HAV DALBIR SINGH	(14922988L Now JC-422606X)	01 st Apr 2014

ARMD CORPS

To be Substantive RIS MAJ

1	RISALDAR	YASH PAL SINGH	(JC242863M)	01 Feb 2013
2	RISALDAR	TEJ PAL SINGH	(JC242597Y)	01 Jun 2013
3	RISALDAR	JAGIR SINGH	(JC244165H)	*20 Aug 2013
*(Granted Seniority in the Rank of RIS MAJ wef 01 Jun 2013 without effect on pay and allowances)				
4	RISALDAR	SHIV KUMAR	(JC242493X)	01 Sep 2013
5	RISALDAR	KARAN SINGH	(JC242563L)	01 Dec 2013
6	RISALDAR	SHRI KRISHAN	(JC243197Y)	01 Jan 2014
7	RISALDAR	DULI CHAND	(JC243633L)	01 Jan 2014
8	RISALDAR	SAITAN SINGH	(JC242988K)	01 Feb 2014
9	RISALDAR	CHANAN SINGH	(JC241495W)	01 Mar 2014
10	RISALDAR	BALAKRISHNAN K	(JC241979W)	*15 Mar 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS MAJ wef 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances)				
11	RISALDAR	RAM KUMAR	(JC243040Y)	*03 Mar 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS MAJ wef 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances)				

To be Substantive RIS

1	NAIB RISALDAR	MAHESH KUMAR SHARMA	(JC243351M)	01 Jan 2013
2	NAIB RISALDAR	VIRENDRA PRATAP SINGH	(JC244925A)	01 Feb 2014
3	NAIB RISALDAR	HARJIT SINGH	(JC244886M)	*10 Dec 2013
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Dec 2013 without effect on pay and allowances)				
4	NAIB RISALDAR	BHARAT SINGH	(JC244924X)	*02 Dec 2013
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Dec 2013 without effect on pay and allowances)				
5	NAIB RISALDAR	PATIL NARAYAN MUKUNDA.	(JC244689K)	*20 Jan 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances)				
6	NAIB RISALDAR	VINIT KUMAR	(JC244730P)	01 Jan 2014
7	NAIB RISALDAR	M CHANDRAHASA RAJU	(JC244807M)	*03 Feb 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances)				
8	NAIB RISALDAR	JAGDISH KUMAR	(JC244841M)	01 Jan 2014
9	NAIB RISALDAR	SAHIB SINGH	(JC245296A)	* 05 Jan 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances)				
10	NAIB RISALDAR	BISHAN SINGH	(JC245270L)	* 27 Jan 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 08 Jan 2014 without effect on pay and allowances)				
11	NAIB RISALDAR	BALWAN SINGH	(JC244780A)	* 03 Mar 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 12 Jan 2014 without effect on pay and allowances)				
12	NAIB RISALDAR	RAJ DEEP SINGH	(JC243565H)	01 Feb 2014
13	NAIB RISALDAR	DEV DATT	(JC243789H)	*10 Feb 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances)				
14	NAIB RISALDAR	KAMAL KANT	(JC243866M)	01 Feb 2014
15	NAIB RISALDAR	LAKHWINDER SINGH	(JC244375H)	01 Feb 2014
16	NAIB RISALDAR	JASPAL SINGH	(JC244393L)	01 Feb 2014

17	NAIB RISALDAR SUBHASH	(JC244728X)	01 Feb 2014
18	NAIB RISALDAR SHAIKH MOHAMMAD AKHIL M	(JC244731X)	01 Feb 2014
19	NAIB RISALDAR KAMALJIT SINGH	(JC244794A)	01 Feb 2014
20	NAIB RISALDAR HARI NANDAN SINGH	(JC244928N)	*04 Feb 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances)			
21	NAIB RISALDAR RAJA SHEKHAR ENAGI	(JC244929W)	01 Feb 2014
22	NAIB RISALDAR GOUTAM MANDAL	(JC244930L)	* 03 Mar 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances)			
23	NAIB RISALDAR ANUP KUMAR	(JC245009L)	01 Feb 2014
24	NAIB RISALDAR SHINDE NANA SAHEB YASHVANT	(JC244105N)	01 Mar 2014
25	NAIB RISALDAR RANJIT SINGH	(JC244370K)	01 Mar 2014
26	NAIB RISALDAR MEGH SINGH	(JC244487H)	01 Mar 2014
27	NAIB RISALDAR JAGJEET SINGH	(JC244489N)	01 Mar 2014
28	NAIB RISALDAR RAMENDRA KUMAR	(JC244526W)	01 Mar 2014
29	NAIB RISALDAR VIRPAL SINGH	(JC244592Y)	01 Mar 2014
30	NAIB RISALDAR JAI PRAKASH	(JC244671N)	*03 Mar 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances)			
31	NAIB RISALDAR DIWAKAR PANDEY	(JC244983K)	01 Mar 2014
32	NAIB RISALDAR ALLA BHAKASHA NAKIAR	(JC244984M)	01 Mar 2014

RAJEEV JAUHARI
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 119, dated 1st May 2014--The President is pleased to make the following promotions :--

REGULAR ARMY

ARMY EDUCATIONAL CORPS

To be Subedar Major

Sub	Madhusoodanan A	JC-803075K	01-10-2013
Sub	Jai Vindra Singh	JC-803080P	01-10-2013
Sub	Satpal	JC-803087Y	01-11-2013
Sub	Dinesh Chandra	JC-803090Y	@02-12-2013
Sub	Lakhi Kant Mishra	JC-803120L	01-12-2013
@ Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Dec 2013 without effect on pay and allowances.			
Sub	Hanuman Datt Mishra	JC-803058K	#02-01-2014
Sub	Ravindra Goswami	JC-803061K	#02-01-2014
Sub	Bhag Chand Jat	JC-803130P	01-01-2014
Sub	Kamal Singh Negi	JC-803158P	01-01-2014
# Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances.			
Sub	Dharamvir Singh Khatri	JC-803169F	\$03-02-2014
Sub	Panna Ram	JC-803177A	01-02-2014
\$Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances.			
Sub	Ashok Kumar Rathi	JC-803025Y	@08-06-2013

Sub	Subhash Chander	JC-803056Y	@ 24-06-2013
@ Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Jun 2013 without effect on pay and allowances.			
Sub	Mahender Singh	JC-803057F	#08-07-2013
# Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Jul 2013 without effect on pay and allowances.			
Sub	Madan Singh Rawat	JC-803060F	*19-08-2013
Sub	Nand Lal Arora	JC-803069N	*16-08-2013
*Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Aug 2013 without effect on pay and allowances.			
Sub	Binod Ballabh	JC-803072W	01-09-2013

To be Subedar

Nb Sub	Amar Nath Prasad	JC-803963Y	*10-10-2013
Nb Sub	Sudisht Narayan Choudhary	JC-803964F	*01-10-2013
* Granted seniority in the rank of Sub wef 25 Jun 2013 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Bhanu Partap Raghav	JC-803984P	@ 28-09-2013
@ Granted seniority in the rank of Sub wef 26 Jun 2013 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Sharwan Kumar Yadav	JC-804014Y	#17-08-2013
# Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2013 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Roshan Lal	JC-804032F	\$17-09-2013
\$Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2013 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Kailash Chandra	JC-804048M	*01-10-2013
*Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2013 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Balbir Singh	JC-804051M	01-11-2013
Nb Sub	Asha Ram Rathore	JC-804052P	01-11-2013
Nb Sub	Deepak Kumar Rawat	JC-804053X	@ 11-11-2013
Nb Sub	Daya Shankar Tiwari	JC-804054A	01-11-2013
@Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2013 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Manohar Satogiya	JC-804055H	01-12-2013
Nb Sub	Ram Singh	JC-804057N	01-12-2013
Nb Sub	Verinder Singh	JC-804059Y	#02-12-2013
Nb Sub	Narendra Kumar Sharma	JC-804060N	01-12-2013
Nb Sub	Prembir Singh	JC-804061W	01-12-2013
Nb Sub	Govinda	JC-804062Y	01-12-2013
Nb Sub	Ram Narayan Yadava	JC-804065M	01-12-2013
Nb Sub	Krishana Pal Singh Sikarwar	JC-804066P	#02-12-2013
Nb Sub	Shashi Kumar Prasher	JC-804067X	#04-12-2013
Nb Sub	Sita Ram	JC-804068A	#03-12-2013
Nb Sub	Navin Kumar Singh	JC-804069H	01-12-2013
Nb Sub	Sakti Brata De	JC-804070X	#02-12-2013

Nb Sub	Shiv Prasad Mishra	JC-804072H	#05-12-2013
Nb Sub	Ravi Chandra Prakash	JC-804073L	#02-12-2013
Nb Sub	Moti Lal	JC-804074N	01-12-2013
Nb Sub	Mukesh Kumar Adlakha	JC-804075W	#03-12-2013
Nb Sub	Om Prakash	JC-804077F	#02-12-2013
Nb Sub	Jagdish Chandra Singh	JC-804078K	#02-12-2013
Nb Sub	Rama Chandra Barik	JC-804080F	#02-12-2013
Nb Sub	Ram Das	JC-804082M	01-12-2013
Nb Sub	Mohammad Rehan	JC-804083P	#05-12-2013
Nb Sub	Yogendra Pratap Singh	JC-804084X	01-12-2013
Nb Sub	Reghukumaran Nair P	JC-804085A	#03-12-2013
Nb Sub	Rajeevan EK	JC-804086H	#02-12-2013
Nb Sub	Joshi Gurunath Hari	JC-804087L	#02-12-2013
Nb Sub	Avtar Singh	JC-804088N	01-12-2013
Nb Sub	Manbar Singh Kaparuwan	JC-804089W	01-12-2013
Nb Sub	Rajesh Chandra Muwar	JC-804090L	#02-12-2013
Nb Sub	Sukhdev	JC-804091N	#02-12-2013
Nb Sub	Rajveer Poonia	JC-804093Y	01-12-2013
Nb Sub	Mahendra Pal	JC-804094F	#03-12-2013
Nb Sub	Raj Kumar Saroha	JC-804095K	#02-12-2013
Nb Sub	Surinder Kumar	JC-804097P	01-12-2013
#Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2013 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Rajesh Babu	JC-804098X	01-01-2014
Nb Sub	Dhirendra Singh Negi	JC-804099A	01-01-2014
Nb Sub	Bahadur Singh	JC-804101M	01-01-2014
Nb Sub	Prem Chand	JC-804102P	01-01-2014
Nb Sub	Ashok Kumar	JC-804103X	@06-01-2014
Nb Sub	Brijendra Singh	JC-804104A	01-01-2014
Nb Sub	Prasanna Kumar R	JC-804106L	01-01-2014
Nb Sub	D Manikandan	JC-804108W	01-01-2014
Nb Sub	Rakesh Kumar	JC-804110N	01-01-2014
Nb Sub	Subhash Chander	JC-804111W	01-01-2014
Nb Sub	Birendra Kumar Mishra	JC-804112Y	01-01-2014
Nb Sub	Santosh Kumar Tiwari	JC-804113F	01-01-2014
Nb Sub	Balwinder Singh	JC-804114K	01-01-2014
Nb Sub	Ram Prakash	JC-804115M	01-01-2014
Nb Sub	Pramod Kumar	JC-804116P	01-01-2014

Nb Sub	Ram Kishan	JC-804117X	01-01-2014
Nb Sub	Ram Prakash Sinha	JC-804119H	01-01-2014
Nb Sub	Deepak Kumar Verma	JC-804120X	01-01-2014
Nb Sub	Sadhanandan G	JC-804121A	@08-01-2014
Nb Sub	Rakesh Kumar	JC-804122H	01-01-2014
Nb Sub	Mohammad Salahuddin	JC-804123L	01-01-2014
Nb Sub	Rajeev N	JC-804124N	01-01-2014
Nb Sub	Trilok Singh	JC-804125W	01-01-2014
@Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Mahendra Singh Rathore	JC-804126Y	01-02-2014
Nb Sub	Suresh Babu Parayi	JC-804127F	01-02-2014
Nb Sub	Rakesh Kumar	JC-804129M	01-02-2014
Nb Sub	Devi Singh	JC-804131K	01-02-2014
Nb Sub	Sardari Lal	JC-804132M	01-02-2014
Nb Sub	Ramesh Babu KS	JC-804134X	01-02-2014
Nb Sub/Clk	Kumaran CM	JC-804356M	*01-10-2013
*Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2013 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub/Clk	Jasvir Singh	JC-804455P	01-01-2014
Nb Sub/Clk	Hemraj Singh	JC-804460A	01-01-2014
Nb Sub	Mahender Singh	JC-803917K	*11-12-2012
* Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Gopal Singh	JC-803996K	@13-05-2013
Nb Sub	Rakesh Sharma	JC-803998P	@23-05-2013
Nb Sub	Ramesh Kumar	JC-803999X	01-05-2013
@Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2013 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Nawab Singh	JC-804001F	#10-07-2013
Nb Sub	Rajjan Prasad	JC-804002K	#05-07-2013
Nb Sub	Pramod Kumar Mishra	JC-804003M	#12-06-2013
Nb Sub	Shree Krishna	JC-804004P	#12-06-2013
Nb Sub	Mahavir Singh	JC-804005X	#04-07-2013
Nb Sub	Gyan Prakash Singh	JC-804006A	#22-07-2013
Nb Sub	Shiv Kumar	JC-804007H	#05-07-2013
Nb Sub	Sri Balwant Singh Bora	JC-804013W	#25-07-2013
Nb Sub	Gouranga Charan Pradhan	JC-804015F	#20-06-2013
Nb Sub	Rakesh Mohan Singh Rawat	JC-804016K	#22-06-2013
Nb Sub	Animesh Acharya	JC-804017M	#03-07-2013
Nb Sub	Subodh Kumar Gupta	JC-804018P	#07-08-2013
Nb Sub	Vinod Kumar	JC-804019X	#12-07-2013
#Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2013 without effect on pay and allowances.			

Nb Sub	Kamal Kishore Joshi	JC-804020M	01-07-2013
Nb Sub	Rajeevan Kollon	JC-804021P	*11-07-2013
Nb Sub	Bhupal Singh	JC-804022X	*10-07-2013
Nb Sub	Satya Vir Singh	JC-804023A	16-08-2013
Nb Sub	Chandra Bhushan Tiwari	JC-804024H	*29-07-2013
Nb Sub	Ramesh Chandra	JC-804025L	*10-07-2013
Nb Sub	Sawai Singh Bankawat	JC-804026N	01-07-2013
Nb Sub	Ashok Singh	JC-804027W	01-07-2013
Nb Sub	Daljit Singh	JC-804028Y	*12-07-2013
Nb Sub	Sanjay Kumar Jha	JC-804029F	*18-07-2013
Nb Sub	Ramesh Kumar	JC-804030W	*15-07-2013
Nb Sub	Madan Lal	JC-804031Y	01-07-2013
* Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2013 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Subhash Chandra	JC-804033K	01-08-2013
Nb Sub	Joppy KA	JC-804034M	@05-08-13
Nb Sub	Ravi Prakash	JC-804035P	01-08-2013
Nb Sub	Devendra Kumar Soni	JC-804036X	01-08-2013
Nb Sub	Bhim Singh Khati	JC-804037A	01-08-2013
Nb Sub	Ram Lubhaya	JC-804038H	01-08-2013
Nb Sub	Rokkam Durga Prasad	JC-804039L	01-08-2013
Nb Sub	Pradeep Kumar Sharma	JC-804040A	01-08-2013
Nb Sub	Rajesh Kumar Upadhyay	JC-804042L	@17-08-2013
Nb Sub	Uttam Singh	JC-804043N	@02-09-2013
@ Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2013 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Awtar Singh Rawat	JC-804044W	01-09-2013
Nb Sub	Remesan C	JC-804045Y	#10-09-13
Nb Sub	Jagdish Chandra Pandey	JC-804046F	01-09-2013
Nb Sub	Bajrang Lal	JC-804047K	01-09-2013
Nb Sub	Vidya Sagar	JC-804049P	01-09-2013
Nb Sub	Naresh Chand	JC-804050K	#03-09-2013
#Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2013 without effect on pay and allowances.			

To be Naib Subedar

Hav	Ajay Kumar Yadav	(9511841Y Now JC-804819W)	#02-09-2013
Hav	Anup Gan	(9511848H Now JC-804823Y)	01-09-2013
#Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2013 without effect on pay and allowances.			
Hav/Clk	Anurudh Kumar Kushwaha	(9510760M Now JC-804825K)	@05-10-2013
Hav	Krishna Mohan Singh	(9511850A Now JC-804826M)	@11-11-2013
Hav	Pramod Kumar Mishra	(9511852L Now JC-804827P)	@11-10-2013

Hav	Narender Kumar Jhakhra	(9511854W Now JC-804828X)	@21-10-2013
Hav	Sri Suresh Chandra Pandey	(9511855Y Now JC-804829A)	@23-10-2013
Hav	Pawar Bhairu Shripati	(9511858M Now JC-804830P)	@28-10-2013
@ Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2013 without effect on pay and allowances.			
Hav	Ramesh Kumar Mishra	(9511860K Now JC-804831X)	01-11-2013
Hav	Pradeep Kumar Sahoo	(9511864A Now JC-804832A)	01-11-2013
Hav	Shibu PS	(9511866L Now JC-804833H)	01-11-2013
Hav	Pradyumna Kumar Mohapatra	(9511871W Now JC-804834L)	01-11-2013
Hav	Lakshmi Kanta Pattnaik	(9511874K Now JC-804835N)	01-11-2013
Hav	Padma Kumar AS	(9511875M Now JC-804836W)	01-11-2013
Hav	Ajay Kumar Nayak	(9511884N Now JC-804837Y)	\$02-12-2013
Hav	Deepak Kumar Paikray	(9511886Y Now JC-804838F)	01-12-2013
Hav	Rajesh Kumar Dubey	(9511887F Now JC-804839K)	01-12-2013
Hav	Suresh Pandey	(9511889M Now JC-804840Y)	01-12-2013
Hav	Yatendra Singh	(9511894X Now JC-804841F)	01-12-2013
Hav	Bijay Kumar Singh	(9511897L Now JC-804842K)	\$03-12-2013
Hav	Sura Sundar Natha	(9511902L Now JC-804843M)	01-12-2013
Hav	Bharat Singh Rawat	(9511467F Now JC-804844P)	\$02-12-2013
Hav	Suresh Prasad Yadava	(1485711Y Now JC-804845X)	\$02-12-2013
Hav	Krishan Chand	(9511770H Now JC-804846A)	01-12-2013
Hav	Sri Kamlesh Kumar Singh	(9511921W Now JC-804847H)	01-12-2013
Hav	Bharat Singh	(9511923F Now JC-804848L)	01-12-2013
Hav	Suresh Kumar	(9511925M Now JC-804849N)	\$02-12-2013
Hav	Jayanta Kumar Chattopadhyay	(9511926P Now JC-804850H)	01-12-2013
Hav	Prem Giri	(9511928A Now JC-804851L)	01-12-2013
Hav	Rakesh Kumar Sharma	(9511929H Now JC-804852N)	\$02-12-2013
Hav	Ravi Chhetri	(9511932H Now JC-804853W)	01-12-2013
Hav	Prakash Sarma	(9511942M Now JC-804854Y)	\$02-12-2013
Hav	Chet Ram	(9511945A Now JC-804855F)	01-12-2013
Hav	Anant Khatri	(9511951N Now JC-804856K)	01-12-2013
Hav	Subash Chander	(9511960P Now JC-804857M)	\$02-12-2013
Hav	Laxman Singh Gusain	(9511966W Now JC-804858P)	\$02-12-2013
Hav	Rajeshwar Singh Guleria	(9511967Y Now JC-804859X)	01-12-2013
Hav	Santosh Kumar Sahu	(9511972K Now JC-804860M)	01-12-2013
Hav	Rakesh Kumar Rana	(9511975X Now JC-804861P)	01-12-2013
Hav	Rajeevan Neroth	(9511978L Now JC-804862X)	\$02-12-2013
Hav	Vinod Kumar VP	(9511981L Now JC-804863A)	01-12-2013
Hav	Bikram Singh	(9511986K Now JC-804864H)	\$02-12-2013

Hav	Mahesh Kumar Bhandari	(9511987M Now JC-804865L)	01-12-2013
Hav	Ram Anmol Dubey	(9511989X Now JC-804866N)	\$02-12-2013
Hav	Surender Kumar Chadha	(9511990M Now JC-804867W)	01-12-2013
Hav	Sameer Sengar	(9511992X Now JC-804868Y)	\$02-12-2013
Hav	Ajeet Singh	(9511993A Now JC-804869F)	\$02-12-2013
Hav	Lal Bahadur Singh Chauhan	(9511995L Now JC-804870W)	\$02-12-2013
Hav	Prakash Pardhi	(9511996N Now JC-804871Y)	01-12-2013
Hav	Prakash	(9511941K Now JC-804872F)	\$01-01-2014
\$ Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2013 without effect on pay and allowances.			
Hav	Prakasan Velluvalappil	(9511933L Now JC-804875P)	\$15-01-2014
Hav	Gour Chandra Ray	(9511936Y Now JC-804876X)	\$01-01-2014
Hav	Brajesh Kumar	(9511949W Now JC-804877A)	\$01-01-2014
Hav	Shre Kant Pandey	(9511950L Now JC-804878H)	\$01-01-2014
Hav	Surinder Kumar	(9511965N Now JC-804879L)	\$01-01-2014
\$ Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Dec 2013 without effect on pay and allowances.			
Hav	Subhash Chand	(9511927X Now JC-804882L)	*06-01-2014
Hav	Asokan R	(9511876P Now JC-804880A)	*22-01-2014
Hav	Sri Rajanikant Chaturvedi	(9511938K Now JC-804883N)	*08-01-2014
Hav	Girdhari Singh Jodha	(9511961X Now JC-804884W)	*17-01-2014
* Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Dec 2013 without effect on pay and allowances.			
Hav/Clk	Jitendra Kumar	(9510774M Now JC-804873K)	01-01-2014
Hav/Clk	Dinesh Singh	(9510976N Now JC-804874M)	01-01-2014
Hav	Omparkash	(9511999F Now JC-804885Y)	01-01-2014
Hav	Kailash Chander	(9512003W Now JC-804886F)	@09-01-2014
Hav	Lalit Kumar Thakur	(9512004Y Now JC-804887K)	01-01-2014
Hav	Padam Chand	(9512006K Now JC-804888M)	01-01-2014
Hav	Chittaranjan Sahoo	(9512009X Now JC-804889P)	01-01-2014
Hav	Eqbal Singh Mandrwai	(9512010M Now JC-804890K)	01-01-2014
Hav	Ravinder Singh	(9512012X Now JC-804891M)	01-01-2014
Hav	Jitender Singh	(9512015L Now JC-804892P)	01-01-2014
Hav	Tilak Raj	(9512016N Now JC-804893X)	@09-01-2014
Hav	Prahalad Singh	(9512018Y Now JC-804894A)	01-01-2014
Hav	Dharmendra Singh Negi	(9512019F Now JC-804895H)	@06-01-2014
Hav	Mukesh Kumar Yadav	(9512020W Now JC-804896L)	01-01-2014
Hav	Upender Kumar Awasthi	(9512022F Now JC-804897N)	@09-01-2014
Hav	Sanjeev Singh	(9512025P Now JC-804898W)	01-01-2014
@ Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Naresh Chand	(9512026X Now JC-804899Y)	01-02-2014

Hav	Hari Om	(9512027A Now JC-804900H)	01-02-2014
Hav	Sudhir Kumar Patnaik	(9512028H Now JC-804901L)	01-02-2014
Hav	Surendra Singh	(9512031H Now JC-804903W)	01-02-2014
Hav	Ovandra Kumar	(9512033N Now JC-804904Y)	01-02-2014
Hav	Adarsh Kumar Saxena	(9512043X Now JC-804905F)	01-02-2014
Hav	Shyamvir Singh	(9512046L Now JC-804906K)	01-02-2014
Hav	Ramakrishnan A	(9512051W Now JC-804907M)	01-02-2014
Hav	Chandra Kant Saxena	(9512052Y Now JC-804908P)	01-02-2014
Hav	Manguli Charan Samal	(9512054K Now JC-804909X)	01-02-2014
Hav	Sanjiv Singh	(9511725W Now JC-804764X)	01-05-2013
Hav	Subhash Chand	(9511733P Now JC-804767L)	01-05-2013
Hav	Umesh Kumar Singh	(9511737L Now JC-804769W)	01-05-2013
Hav	Patil Suresh Shivgonda	(9511743Y Now JC-804771N)	01-05-2013
Hav	Maharaj Singh	(9511744F Now JC-804772W)	01-05-2013
Hav	Kishor Kumar Sharma	(9511756W Now JC-804778X)	01-06-2013
Hav	Sree Kumar M	(9511758F Now JC-804779A)	01-06-2013
Hav	Roop Singh	(9511759K Now JC-804780P)	01-06-2013
Hav	Chanchal Singh	(9511760Y Now JC-804781X)	01-06-2013
Hav	Vijaya Kumar AC	(9511763M Now JC-804782A)	@27-06-2013
Hav	Saleem Ahamed PP	(9511765X Now JC-804783H)	01-06-2013
Hav	Sunil Kumar	(9511769N Now JC-804793M)	@01-08-2013
Hav	Narendra Singh	(9511771L Now JC-804784L)	01-06-2013
Hav	Ashok Kumar Singh	(9511776K Now JC-804785N)	01-06-2013
Hav	Sri Kishor Kumar Sahu	(9511777M Now JC-804786W)	01-06-2013
Hav	Raghubir Singh	(9511780M Now JC-804787Y)	01-06-2013
Hav	Pramod Chhetri	(9511781P Now JC-804788F)	01-06-2013
Hav	Vishaw Nath Singh	(9511783A Now JC-804789K)	@03-06-2013
Hav	Ashok Kumar	(9511785L Now JC-804790Y)	01-06-2013
Hav	Ram Ot Pandey	(9511787W Now JC-804791F)	01-06-2013
Hav	Suranjan Niyogi	(9511788Y Now JC-804792K)	01-06-2013
@ Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2013 without effect on pay and allowances.			
Hav	Vinod Kumar	(9511792F Now JC-804794P)	01-07-2013
Hav	Om Prakash Pandey	(9511793K Now JC-804795X)	01-07-2013
Hav	Pathak Sriram Dattatray	(9511794M Now JC-804796A)	01-07-2013
Hav	Devendra Singh	(9511797A Now JC-804797H)	01-07-2013
Hav	Jagat Singh	(9511798H Now JC-804798L)	#15-07-2013
Hav	Jeewan Lal	(9511800P Now JC-804799N)	01-07-2013
Hav	Sourindra Nanda	(9511803H Now JC-804800X)	01-07-2013

Hav	Rajeev Kumar Singh	(9511804L Now JC-804801A)	01-07-2013
Hav	Rajbir Singh	(9511805N Now JC-804803L)	01-07-2013
Hav	Parit Balaso Laxman	(9511806W Now JC-804802H)	01-07-2013
Hav	K Paul Raj	(9511811F Now JC-804804N)	01-07-2013
Hav	Kumar T	(9511812K Now JC-804805W)	01-07-2013
#Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2013 without effect on pay and allowances.			
Hav	Bijay Kumar Mohanty	(9511815X Now JC-804806Y)	01-08-2013
Hav	Ganesh Sahu	(9511816A Now JC-804807F)	01-08-2013
Hav	Virender Singh	(9511817H Now JC-804808K)	01-08-2013
Hav	Kamal Kumar Satapathy	(9511818L Now JC-804809M)	01-08-2013
Hav	Hareesh Kumar Katungolath	(9511819N Now JC-804810F)	01-08-2013
Hav	Anil Kumar S	(9511821L Now JC-804811K)	01-08-2013
Hav	Suresh Kumar KK	(9511827M Now JC-804812M)	01-08-2013
Hav	Prasanna Kumar Behera	(9511833A Now JC-804813P)	01-08-2013
Hav	Sushanta Kumar Mishra	(9511834H Now JC-804814X)	01-08-2013
Hav	Surender Kumar	(9511836N Now JC-804815A)	01-08-2013
Hav	Gobinda Chandra Sahoo	(9511837W Now JC-804816H)	01-08-2013
Hav	Sri Sanjeev Kashyap	(9511839F Now JC-804817L)	01-08-2013
Hav	Bir Bahadur Hingmang	(9511840W Now JC-804818N)	*02-09-2013
Hav	Shilendra Kumar	(9511842F Now JC-804820L)	01-09-2013
Hav	Dinesh Kumar	(9511844M Now JC-804821N)	01-09-2013
Hav	Jaiparkash	(9511845P Now JC-804822W)	01-09-2013
Hav	Mahander Singh	(9511849L Now JC-804824F)	*02-09-2013
*Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2013 without effect on pay and allowances.			

BHARAT BHUSHAN
Under Secy

DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE

No. 120, dated 2nd May 2014--President of India is pleased to make the following promotions :--

1. Shri Sanjay Kumar Agrawal, Principal Scientific Officer of OAQA, Dehradun as Director in ORDAQA, Korwa w.e.f. 25.10.2013 (F/N).
2. Shri S Iftekhar Ahmed, Principal Scientific Officer of ORDAQA, Bengaluru as Director in ORDAQA(AA), Kirkee, Pune w.e.f. 31.12.2013 (F/N).
3. Shri AK Steele, Principal Scientific Officer of SSQAG, Hyderabad as Director in SSQAG, Hyderabad w.e.f.15.10.2013 (F/N).
4. Shri RK Sinha, Principal Scientific Officer of ORDAQA(AA), Kirkee, Pune as Director in ODDG (Koraput) w.e.f.15.11.2013 (F/N).
5. Shri MJ Vinod Kumar, Principal Scientific Officer of MSQAA, Hyderabad as Director in MSQAA, Hyderabad w.e.f. 15.10.2013 (F/N).
6. Shri Rajendran Ganesan, Principal Scientific Officer of ODDG(Nasik) as Director in ORDAQA(HAL), Hyderabad w.e.f. 18.10.2013 (F/N).
7. Shri Ajay Sagraya, Principal Scientific Officer of HQ DGAQA, New Delhi as Director in ORDAQA, Bengaluru w.e.f. 12.11.2013 (F/N).

8. Shri DB Bhangale, Principal Scientific Officer of ORDAQA(GW), Hyderabad as Director in ODDG (Koraput) w.e.f. 04.11.2013 (F/N).

9. Shri G Pari, Principal Scientific Officer of ALISDA, Bengaluru as Director in ODDG (Nasik) w.e.f. 13.11.2013 (F/N).

10. Shri M Natesh, Principal Scientific Officer of ORDAQA, Bengaluru as Director in ORDAQA, Bengaluru w.e.f. 15.10.2013 (F/N).

11. Shri AK Parashar, Principal Scientific Officer of HQ DGAQA, New Delhi as Director in HQ DGAQA, New Delhi w.e.f. 17.10.2013 (F/N).

INDERJEET SETHI
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 121, dated 5th May 2014--The President is pleased to permit the under mentioned officer to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform :--

TERRITORIAL ARMY
RETIREMENT

Col (TS) Satwant Singh Pabla	TA-41904	ENGR (TA)	31 Dec 2013 (AN)
Lt Col K A N Mathur	TA-42170	ENGR (TA)	31 Aug 2013 (AN)

RITU SHARMA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 122 dated 6th May 2014--The President permits the undermentioned officer to be discharged from Territorial Army Commission :--

TERRITORIAL ARMY
TO BE DISCHARGED

Capt Sanjay Kumar Chaubey	TA-42395	(ENGR TA)	06 Nov 2006 (AN)
---------------------------	----------	-----------	------------------

RITU SHARMA
Under Secy

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद
में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in